



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27—अप्रैल 2, 2004 (चैत्र 7, 1926)  
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27—APRIL 2, 2004 (CHAITRA 7, 1926)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली 110011, दिनांक 12 मार्च 2004

सं० ए-22012/1/2004-पीएमए—राष्ट्रपति जी, श्री राजिन्द्र शर्मा जो इस समय नीजी प्रोन्नयन आधार पर अवर सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को दिनांक 16-10-2003 के पूर्वाह्न से लेकर अगले आदेश तक प्रधान मंत्री कार्यालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी अर्थात् अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री शर्मा की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16-10-2003 और दिनांक 1-3-2004 के का. शा. सं० 31/10/2003-ई ओ (एम० एम०-1) में निर्धारित शर्तों के अधीन नियंत्रित होगी।

पी० के० राय, अवर सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2004

सं० ए-19014/2/2004-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री जी० सी० चन्दोला, सहायक निदेशक ग्रेड-I (रसा०), लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली को राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 24 जनवरी, 2004 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुनील मिश्र, उप सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-580 094, दिनांक 9 मार्च 2004

सं० 12/1/3/2003-I—संयुक्त सचिव, अन्तरिक्ष विभाग श्री के० हरिहरन, परियोजना सहायक, अन्तरिक्ष विभाग को

र० 6500-200-10500/- के घेनमान पर अनुभाग अधिकारी, अन्तरिक्ष विभाग के रूप में दिनांक 04 मार्च 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के०एस० रामचन्द्र, उपसचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2004

सं० ए-12023/5/93-प्रशा० III(वि०का०)—62 वर्ष की आयु होने पर, आयकर अपील अधि करण के श्री सतीश चंद्र लेखा सदस्य अधिवर्षिता पर आयकर अपील अधि करण सदस्य (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसार, दिनांक 1 मार्च 2004 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

यशवन्त सिंह, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 5 मार्च 2004

सं० के० 13025/1/2004-यू० एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, उड़ीसा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायाविद् श्री प्रदीप कुमार महान्ति को अपना कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

(डा०) पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2004

सं० आई-14011/23/2003-आई० पी० एस०-1—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में द्वितीय परंतुक के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी :-

चयन सूची-2001

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	लालजी शुक्ला	01-07-1955

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2004

सं० I-14012/8/2003-आई०पी०एस०-IV—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को, सिविल सेवा परीक्षा, 2002 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर, उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा (आई०पी०एस०) में (परिवीक्षा पर) नियुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	भा०पु०से० के परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	मुकेश कुमार सिंह	01-09-2003 (पूर्वाह्न)
2.	राजेश कुमार	—वही—
**3.	ओमप्रकाश पाल	01-09-2003 (अपराह्न)
4.	सुन्दरराज पी०	05-09-2003 (अपराह्न)
5.	रतन लाल	01-09-2003 (पूर्वाह्न)
6.	राकेश कुमार आर्य	—वही—
**7.	पुपुल दत्त प्रसाद	—वही—
8.	आशीष चौधरी	—वही—
**9.	पवार प्रवीण मधुकर	—वही—
10.	सी० एच० नागराज	—वही—
**11.	राजेश प्रधान	—वही—
**12.	अनीष प्रसाद	—वही—
13.	एच० थंगोलियन गंगटे	—वही—
14.	सुश्री सोनिया वर्मा	07-09-2003 (अपराह्न)
**15.	रमाकांत गुप्ता	01-09-2003 (पूर्वाह्न)
**16.	सुश्री कविता जालान	—वही—
**17.	हिमांशु कुमार लाल	—वही—
18.	निखिल कुमार कनोडिया	—वही—
19.	शेफीन अहमद के०	—वही—
**20.	सुखचैन सिंह	—वही—
**21.	नितिन दीप बल्लभन	—वही—
22.	हिंगलाजदान	05-09-2003 (पूर्वाह्न)
23.	मनोज तिवारी	01-09-2003 (पूर्वाह्न)
**24.	कोटनिस अश्विन मुकुन्द	—वही—

**25	प्रदीप कुमार	1-9-2003 (पूर्वाह्न)
26	बालाकृष्णा बी०	05-09-2003(अप०)
27	सुश्री विष्णी सचदेवा	01-09-2003 पूर्वाह्न
**28	अजय कुमार मिश्रा	—वही—
29	कतारपू सुनील इम्मेनुअल	—वही—
**30	बी०बी०आर० चन्द्र पुरुषोत्तम	22-12-2003(पूर्वाह्न)
**31	शाहनवाज कासिम	—वही—
**32	अखिलेश कुमार सिंह	—वही—
33	अनुराग	—वही—
**34	विकास वैभय	—वही—
**35	दीपांकर शिवेदी	—वही—
**36	अशोक कुमार	—वही—
**37	अखिलेश कुमार झा	—वही—
38	केशव राम	—वही—
**39	विधि कुमार विरदी	—वही—
40	त्रिलोक चन्द्र के० बी०	—वही—
41	एन० सतीश कुमार	—वही—
**42	सिद्धार्थ शाशनी	—वही—
**43	फूल चन्द मीणा	—वही—
44	हरिनारायणाचारी मिश्रा	—वही—
45	जसवीर सिंह	—वही—
**46	संजय कुमार कौशल	—वही—
**47	अमित कुमार सिंह	—वही—
**48	सुधाकर	—वही—
**49	नचिकेता झा	—वही—
**50	मोदक राजेश दिनेशराव	—वही—
**51	रमन रविनाथ एम०बी०ए०पी०	—वही—
**52	वसंत कुमार एन०	—वही—
**53	सत्येन्द्र मधूरिया	26-12-2003 (पूर्वाह्न)
**54	प्रणव कुमार	01-01-2004 (पूर्वाह्न)

2. क्रम सं० 3, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53 पर उल्लिखित भा०पु०से० के परिबीक्षाधियों, जिनके नामों को तारांकित किया गया है, की भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति अनन्तिम है तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवश्यक अनारपित दिए जाने के अध्वधीन है।

जे० बी० कौशिम, डेस्क अधिकारी

सं० I-18011/11/2003-आई पी एस-IV—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परीबीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विवेक किशोर

आई०पी०एस०(एजीएमयू : 1999) को दिनांक 10-1-2003 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

जे० बी० कौशिम, डेस्क अधिकारी

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 08 मार्च 2004

सं० ए-17011/10/2004 प्रशासन-I—इस निदेशालय के श्री सुरेश करण, स्थायी अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजेजे) का दिनांक 12-02-2004 को स्वर्गवास हो गया।

कमलेश डेका, निदेशक, पुलिस दूरसंचार

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2004

सं० 23012/1/2004-अ०भा०से० (III)—भारतीय प्रशासनिक सेवा की वर्ष 1979 में हुई परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त और तमिलनाडु संवर्ग के अधिकारी थिरु एम० कलाइवनन (तमिलनाडु : 80) को अपना नाम थिरु एम० मूटिया कलाइवनन करने की अनुमति दी गई है और तदनुसार सभी प्रयोजनों के लिए इनको थिरु एम० मूटिया कलाइवनन के नाम से जाना जाएगा।

अकील अहमद, उप सचिव

दिनांक 12 मार्च 2004

विषय:- डॉ० जी० एस० जया, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए० जी० एम० यू० : 78) की दिनांक 14-11-1998 से ड्यूटी से अप्राधिकृत अनुपस्थिति कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना।

सं० 11019/5/03-अ०भा०से०-(III)—अशोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) के अनुसार "सेवा के किसी भी सदस्य को लगातार पांच वर्ष की अवधि से अधिक किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी"। उपर्युक्त नियम 7(2) में आगे यह प्रावधान है कि :-

"जब तक कि केन्द्र सरकार मामले की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर अन्यथा तय न करे, सेवा का कोई सदस्य जो विदेश सेवा को छोड़कर, छुट्टी लेकर अथवा छुट्टी लिए बिना, लगातार वर्ष की अवधि से अधिक ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे सेवा से त्याग पत्र दिया गया समझा जाएगा।

परन्तु यह कि उप नियम (2) के प्रावधान लागू करने से पूर्व सेवा के सदस्य को ऐसी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा।"

2. डॉ० जी० एस० जया भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए० जी० एम० यू० : 78) को 14 नवम्बर, 1993 से दो वर्ष की अवधि के लिए डब्ल्यू०आई०पी०ओ० (WIPO) में विदेश नियुक्ति हेतु संवर्ग अनापत्ति प्रदान की गई थी। इस अवधि को 13 नवम्बर, 1998 तक तीन वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था जब उन्होंने विदेश सेवा में रहने की अधिकतम अनुमत्य पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। दिनांक 13 नवम्बर 1998 से 13 नवम्बर, 2003 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सेवा वृद्धि के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने विदेश सेवा प्रारंभ होने की तारीख को 25 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी। डॉ० जया, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए० जी० एम० यू० : 78) दिनांक 14 नवम्बर, 1998 से ड्यूटी से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। उन्होंने आज तक अपने संवर्ग अर्थात् भारत-सरकार, गृह-मंत्रालय, नई दिल्ली में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया है। वे दिनांक 14 नवम्बर, 1998 से, पांच वर्ष से भी अधिक अवधि से अपने संवर्ग से अनुपस्थित हैं। अतः इस संबंध में ऊपर उद्धृत अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7 (2) के प्रावधान लागू होते हैं।

3. इस संबंध में डॉ० जया को अन्तिम ज्ञात पते अर्थात् 12 रूड मिशेल सेक्टर, 1206 जेनेवा, स्विट्जरलैंड तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली के माध्यम से जहाँ वे प्रतिनियुक्ति पर थे, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, उनसे पांच वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने वाला कोई उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

4. अतः डॉ० जी० एस० जया, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए० जी० एम० यू० : 78) को एतद्वारा यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि पांच वर्ष से अधिक समय से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण, उपर्युक्त अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) के प्रावधानों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा से उनका त्याग-पत्र दिया हुआ क्यों न समझा जाए। डॉ० जी० एस० जया का उत्तर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर अग्रहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए और ऐसा न किए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि उन्हें अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है और इस मामले में उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत उनके द्वारा त्याग-पत्र दिया हुआ समझा जाने संबंधी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

अकील अहमद, उप सचिव

विषय :—श्री एम० एस० गिल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 86) को दिनांक 18-05-1998 से संवर्ग से अप्राधिकृत अनुपस्थिति-कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

सं० 11019/43/2003अ०-भा०से०-(III)—अधो-हस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) के अनुसार 'सेवा के किसी भी सदस्य को लगातार पांच वर्ष की अवधि से अधिक, किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जायगी'। उपर्युक्त नियम 7(2) में आगे यह प्रावधान है कि :

"जब तक कि केन्द्र सरकार मामले की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर अन्यथा तय न करे, सेवा का कोई सदस्य जो विदेश सेवा को छोड़कर, छुट्टी लेकर अथवा छुट्टी लिए बिना, लगातार पांच वर्ष की अवधि से अधिक ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे सेवा से त्याग-पत्र दिया गया समझा जाएगा।

परन्तु यह कि उप नियम (2) के प्रावधान लागू करने से पूर्व सेवा के सदस्य को ऐसी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने का उपर्युक्त अवसर दिया जाएगा।"

2. श्री एम० एस० गिल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 86) को 17 मई, 1993 से दो वर्ष की अवधि के लिए, विश्व बैंक से विदेश नियुक्ति हेतु संवर्ग अनापत्ति प्रदान की गई थी। इस अवधि को 16 मई, 1998 तक तीन वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था जब उन्होंने विदेश सेवा में रहने की अधिकतम अनुमत्य पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। दिनांक 17 मई, 1998 से एक वर्ष तक सेवाकाल बढ़ाए जाने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि पांच वर्ष के बाद सेवाकाल में वृद्धि अनुमत्य नहीं थी। श्री गिल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 86) दिनांक 17 मई, 1998 से ड्यूटी से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। उन्होंने आज तक अपने संवर्ग में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया है। वे दिनांक 17 मई, 1998 से, पांच वर्ष से भी अधिक अवधि से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। चूंकि ड्यूटी पर से लगातार अनुपस्थिति पांच वर्ष से भी अधिक समय की है, अतः इस संबंध में ऊपर उद्धृत अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) के प्रावधान लागू होते हैं।

3. इस संबंध में श्री गिल को अन्तिम ज्ञात पते अर्थात् के.ए.ए. (केयर ऑफ) शैगमन जंग, प्रबंध निदेशक, रिजर्व बैंक, वाशिंगटन डी० सी० 20433, संयुक्त राज्य अमेरिका पर और उनके संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी अर्थात् महाराष्ट्र राज्य सरकार के माध्यम से दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, उनसे पांच वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने वाला कोई उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

4. अतः श्री एम० एस० गिल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 86) को एतद्वारा यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि पांच वर्ष से अधिक समय से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण, उपर्युक्त अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) के प्रावधानों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा से उनका त्याग-पत्र

दिया हुआ क्यों न समझा जाए। श्री गिल का उत्तर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए और ऐसा न किए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि उन्हें अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है और इस मामले में उपर्युक्त नियम के अन्वये उनके द्वारा त्याग-पत्र दिया हुआ समझा जाने संबंधी कार्यवाई शुरू कर दी जाएगी।

अकील अहमद, उप सचिव

सं०-14012/10/2003-अ० भा०से० (III)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अग्रमूट संबंधों के निम्नलिखित सदस्य को उनके सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्र०सं०	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री सुधीर कुमार	1999	20-09-2001

अकील अहमद, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2004

सं० 14015/11/2003-अ० भा०से० (I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबन्धों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के त्रिपुरा खंड में वर्ष, 2003 के संबंध में 3(तीन) रिक्तियाँ भरे हेतु चयन समिति द्वारा 21 नवम्बर, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में तैय की गई त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों वाली वर्ष, 2003 की प्रवर सूची अनुमोदित कर दी है :—

प्रवर सूची, 2003

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री किशोर अंबुली	8-9-1951
2.	श्री जितदास त्रिपुरा (अनु० जनजाति)	1-3-1949
3.	श्री ललिमंग्लीना दरलांग (अनु० जनजाति)	5-5-1950

के० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

सं० 14015/11/2003-अ० भा०से० (I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

राष्ट्रपति, त्रिपुरा राज्य-सिविल सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष, 2003 की रिक्तियों पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन संयुक्त मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के त्रिपुरा खंड में आवंटित करते हैं :—

प्रवर सूची-2003

क्रम सं०	अधिकारी का नाम
1	श्री किशोर अंबुली
2	श्री जितदास त्रिपुरा (अनु० जनजाति)
3	श्री ललिमंग्लीना दरलांग (अनु० जनजाति)

के० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

दिनांक 11 मार्च 2004

सं० 13017/4/99-अ० भा०से० (I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब और तमिलनाडु सरकारों की सहमति से, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब संवर्ग के अधिकारी श्री जे० एम० बालामुरुगन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर० : 94) की, तमिलनाडु सरकार के अग्रिम प्रतिनिधित्व की अवधि को 18-01-2004 से आगे दो और वर्षों के लिए बढ़ाए जाने का अनुमोदन करती है।

के० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2004

सं० 1/पी ए II/2004—अधिवृषिता की आयु प्राप्त करने पर विदेश मंत्रालय में अवर सचिव श्री वाई० एल० शर्मा 31 दिसम्बर, 2003 की पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० एन० बत्स, अवर सचिव

दिनांक 12 फरवरी 2004

सं० 05/पी० ए II/2004—अधिवृषिता की आयु प्राप्त करने पर विदेश मंत्रालय में अवर सचिव श्री आर० गणेश, 31 अगस्त, 2003 की अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० एन० बत्स, अवर सचिव

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

सं० 2/पी बी/2004—राष्ट्रपति, मंत्रालय के दिनांक 30 मई, 2003 के कार्यालय आदेश संख्या न्यू/सी ए पी/584/2/2003 की शर्तों के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (व) के

आशुलिपिक संवर्ग की ग्रेड-II अधिकारी सुश्री तेजिंदर पाल चावला को 1-1-2004 से उसी संवर्ग के ग्रेड I में स्थानापन्न नियुक्त करते हैं।

सुश्री तेजिंदर पाल चावला ने उपरोक्त दी गई तारीख से अपनी तैनाती के स्थान पर निजी सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया।

भूपेन्द्र कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (पी बी)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी, 2004

सं० 12 (फा० सं० ए० 19013/2/2004-प्रशा०-1) — भारत के राष्ट्रपति, सुश्री अमृता मिश्रा, भा० रा० सेवा को 16-2-2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव (जांच-I) नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

भारतीय सीमा शुल्क एवं के० उ० शु० स्थापनाएं

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च, 2004

सं० 07 की 2004 (फा० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा० II—राष्ट्रपति, श्री अमल कृष्ण पाल, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता-I की भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, ग्रुप “क” से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को दिनांक 31-03-2004 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2004

सं० ए० 12011/15/01-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री अमिताभ डे, प्रबंधक, भारतसरकार मुद्रणालय, (पी० एल० इकाई) फरीदाबाद की इस विभाग के बजट मुद्रणालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में 1-3-2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रबंधक (मुद्रणालय) नियुक्त करते हैं।

ईश्वरचन्द काम्बोज, अवर सचिव

सं० ए-12011/02/2004-प्रशा०-2—इस विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 28 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं० ए-19011/231/2002-स्था० के क्रम में, राष्ट्रपति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में प्रधान निजी सचिव के पद पर सुश्री एंगेला स्टीफन की नियुक्ति को पूर्णतया तदर्थ आधार पर

30-06-2004 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. सुश्री एंगेला स्टीफन की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई दावा प्राप्त नहीं होगा और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवा की गणना उस ग्रेड में वरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजन हेतु नहीं की जाएगी और जब कभी चयन-सूची के व्यक्ति उपलब्ध होंगे उन्हें पदावनत कर दिया जाएगा।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

सं० ए-12011/02/2004-प्रशा०-2—इस विभाग की दिनांक 01 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं० ए०-12011/03/2003-प्रशा० 2 के क्रम में, राष्ट्रपति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री बी० एस० नेगी की नियुक्ति को पूर्णतया तदर्थ आधार पर 30-06-2004 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. श्री नेगी की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं होगा और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवा की गणना उस ग्रेड में वरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजन हेतु नहीं की जाएगी और जब कभी चयन-सूची के व्यक्ति उपलब्ध होंगे उन्हें पदावनत कर दिया जाएगा।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2004

सं० 15/13/04-डीआरटी-राष्ट्रपति, श्री डी० द्वारकानाथ, अनुभाग अधिकारी, गृह मंत्रालय को 10,000-15,200/- रु० के वेतनमान में दिनांक 9-2-2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-I, चेन्नै के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वसूली अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

सं० 15/14/04-डीआरटी—राष्ट्रपति, श्री ए० मिन्ज एमएम-III, बैंक आफ इंडिया को 10,000-15,200/- रु० के वेतनमान में दिनांक 27-1-2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, रांची के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वसूली अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

## कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 फरवरी 2004

सं० पी० एफ० जी० (865)/2004-प्रशासन I—  
राष्ट्रपति ने, राजस्व सेवा के एक अधिकारी सईद नसीर अली को 4 वर्ष के लिए पूर्वाह्न 27 जनवरी, 2004 से 26 जनवरी 2008 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कम्पनी कार्य विभाग में उप सचिव नियुक्त किया है।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2004

सं० पी० एफ० जी० (866)/2004-प्रशासन-I—  
राष्ट्रपति ने, संयुक्त सचिव के स्तर पर श्री अमिताभ कुमार, आई०आर०एस० (आई०टी० : 82) को 18400—22400/- रुपए के वेतनमान पर 5 वर्ष के सामान्यकाल के लिए पूर्वाह्न 19 जनवरी, 2004 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय प्रतियोगिता आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया है।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2004

सं० पी०एफ०जी (864)/2004-प्रशासन-I—राष्ट्रपति ने, संयुक्त सचिव के स्तर पर श्री व्यास जी० आईएएस (बी० एच : 82) को 18400—22400/- रुपए के वेतनमान पर 3 वर्ष के लिए अपराह्न 26 दिसम्बर, 2003 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय प्रतियोगिता आयोग का सचिव नियुक्त किया है।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

## औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीली प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 मार्च 2004

सं० 1/5/2000-प्रशासन—इस प्राधिकरण की दिनांक 27-12-2000, 14-12-2001 और 3-12-2002 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में कृषि मंत्रालय, पशुपालन व डेयरी विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के स्थायी निजी सचिव श्री आर० डी० शर्मा की 10000-

325-15200/- रुपये के वेतनमान में बतौर प्रधान निजी सचिव की प्रतिनियुक्ति की अवधि उन्ही शर्तों और निबन्धनों के साथ दिनांक 26-12-2003 से 25-12-2004 या इस प्राधिकरण के उन्मूलन तक, जो भी पहले घटित हो, बढ़ा दी गई है।

हनुवंत किशोर, अवर सचिव

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2004

सं० ए-4(8)/2003-ईपीजेड—राष्ट्रपति द्वारा श्री बी० विजयन, आईएएस (एजीएमयू : 82) को दिनांक 23-2-2004 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों के होने तक 18,400—22,400/- रु० के वेतनमान में विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अशोक मीणा, उप सचिव

दिनांक 9 मार्च 2004

सं० ए-5/1/2003-ईपीजेड—निदेशक स्तर पर 15100—18300/- रु० के वेतनमान में चयन ग्रेड में उनकी पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप श्री बलदेव सिंह, आईएएस (एमएच : 89) संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज विशेष आर्थिक जोन, मुम्बई की नियुक्ति उनके लिए व्यक्तिगत उपाय के रूप में उप सचिव के पद को निदेशक के रूप में पुनः पदनामित करके/पदोन्नत करके दिनांक 24 मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक निदेशक के पद पर किए जाने के बारे में एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना दी जाती है।

2. इस मंत्रालय की दिनांक 23-12-2003 की समसंख्यक अधिसूचना एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

अशोक मीणा, उप सचिव

## औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2004

सं० ए-19012/810/90-व्य०-1—राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नियमित अनुभाग अधिकारी श्री डी० पी० मेहता को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 29 फरवरी, 2004 (अप०) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्ति की अनुमति देते हैं।

ज० ए० कौर, अवर सचिव

सं. ए-32019/01/2001-अ-1-राष्ट्रपति, विभाग के निम्नलिखित तकनीकी अधिकारियों की प्रत्येक के सामने दर्शाए गए पद में तथा अवधि के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	नाम और धारित मूल पद	धारित तदर्थ पद दिनांक सहित	तदर्थ नियुक्ति का विस्तार से तक	
	सर्वश्री			
1.	सुशील कुमार वि० अधिकारी (इंजी०)	औद्योगिक सलाहकार (इंजी०) 30-11-2000	01-03-2003	29-02-2004
2.	डा० डी० आर० चवला वि० अधिकारी (इंजी०)	औद्योगिक सलाहकार (इंजी०) 01-04-2001	-वही-	-वही-
3.	बी० के० जैन वरि० वि० अधिकारी (इंजी०)	अ० औद्योगिक सलाहकार (इंजी०) 26-02-2001	-वही-	-वही-
4.	एम० एम० अली खान वि० अधिकारी (इंजी०)	वरि० वि० अधिकारी (इंजी०) 04-02-2000	-वही-	-वही-
5.	बी० एन० दास वि० अधिकारी (इंजी०)	वरि० वि० अधिकारी (इंजी०) 04-02-2000	-वही-	30-09-2003
6.	एस० पी० तनेजा वि० अधिकारी (इंजी०)	वरि० वि० अधिकारी (इंजी०) 04-02-2000	-वही-	29-02-2004
7.	मोहन जीत सिंह वि० अधिकारी (इंजी०)	वरि० वि० अधिकारी (इंजी०) 04-02-2000	-वही-	-वही-
8.	ए० के० सांधी वि० अधिकारी (इंजी०)	वरि० वि० अधिकारी (इंजी०) 26-02-2001	-वही-	-वही-
9.	गजराज सिंह स० वि० अधिकारी (इंजी०)	वि० अधिकारी (इंजी०) 05-8-1997	-वही-	-वही-
10.	आर० के० त्रिपाठी स० वि० अधिकारी (इंजी०)	वि० अधिकारी (इंजी०) 26-02-2001	-वही-	-वही-
11.	एन० एल० गोस्वामी स० वि० अधिकारी (इंजी०)	वि० अधिकारी (इंजी०) 20-06-2001	-वही-	-वही-
12.	मो० जकारिया खान युसूफजई स० वि० अधिकारी (इंजी०)	वि० अधिकारी (इंजी०) 20-06-2001	-वही-	-वही-
13.	पी० के० जैन वि० अधिकारी (कैमिकल)	औद्योगिक सलाहकार (कैमि०) 5-8-1997	-वही-	-वही-
14.	शेष कुमार वि० अधिकारी (कैमिकल)	वरि० वि० अधिकारी (कैमि०) 04-02-2000	-वही-	-वही-
15.	एस० एस० बोस स० वि० अधिकारी (कैमिकल)	वि० अधिकारी (कैमि०) 1-9-1997	-वही-	-वही-
16.	डी० सी० सूरी वि० अधिकारी (इंजी०)	वरि० वि० अधिकारी (इंजी०) 25-7-2003	01-09-2006	-वही-

उपर्युक्त नियुक्तियाँ विस्तृत तदर्थ आधार पर की गई हैं और इसके कारण संबंधित अधिकारियों को उक्त पद में लम्बी अवधि तक कार्य करते रहने अथवा उक्त ग्रेड में बरिष्ठता दिए जाने अथवा उच्च ग्रेड में पदोन्नति आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार के पास संबंधित अधिकारियों को बिना कोई कारण बताए या नोटिस आदि दिए बिना तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

ज० अ० कौर, अवर सचिव

**वस्त्र मंत्रालय**

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2004

सं० 3/2004(ए-19011/1/2004-स्था०) — राष्ट्रपति, श्री अजय कुमार, आई० ए० एस० (बिहार : 84) की वस्त्र मंत्रालय में निदेशक के रूप में 15,100-400-18,300 रु० के वेतनमान में 5-3-2004 (अपराह्न) से 9-4-2008 तक अथवा अगले आदेशों तक इसमें जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

अश्वि भूषण, निदेशक

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2004

सं०-ए (19011/1/2004-स्थापना-I) — कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1-3-2004 के का०ज्ञा० सं० 31/10/2003-ईओ(एम०एम० 1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री पी० कल्पसामी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में रु० 12,000-16,500/- के वेतनमान में 3 मार्च 2004 के पूर्वाह्न से उप सचिव (इन-चीटू) के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री पी० कल्पसामी का कार्यकाल इस मंत्रालय में उप सचिव के पद का कार्यभार संभालने की तारीख से सात वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो उनके सात वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख के बाद अथवा उनकी अधिवृष्टता की तारीख के पहले या बाद में हो सकती है, जो भी घटना सबसे पहले होती है के लिए होगा।

एल० एस० नेगी, अवर सचिव

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय**

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 2004

सं०-(ए-11011/1/2003-स्था०-I) — राष्ट्रपति, श्रीमती योगिता लोत्री को 24 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से 6500-2000-10500 रुपये के वेतनमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती योगिता लोत्री की नियुक्ति, सह-समाप्य आधार पर या जब तक नहीं जो वह, इन दोनों में जो भी पहले हो, तब तक के लिए है।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

**इस्पात मंत्रालय**

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2004

सं० 1/2004(36)/2002-स्थापना(I) — मंत्रालय के दिनांक 09-10-2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति इस्पात मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में निम्नलिखित ग्रेड-सी आशुलिपिकों की इसी सेवा

और संवर्ग में निजी सचिव के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति की समयावधि को दिनांक 1-1-2004 से 31-3-2004 अथवा आगे आदेश होने तक अथवा नियमित निजी सचिवों के पदभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं। —

क्रम सं०	अधिकारी का नाम
1.	श्रीमती सुरिन्द्र कौर
2.	श्री एम० एस० पुजानी
3.	श्री आर० के० मल्होत्रा
4.	श्री एच० सी० भट्ट

2. उक्त अधिकारियों की तदर्थ आधार पर की गई इस नियुक्ति के परिणामस्वरूप वे वरिष्ठता अथवा नियमित पदोन्नति का कोई दावा नहीं करेंगे।

3. इसे कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27-2-2004 के कार्यालय आपन सं० 5(5)/2004-सी एस-II के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बाबू राम, अवर सचिव

दिनांक 8 मार्च 2004

सं० 2(15)/2003-स्था० — इस्पात मंत्रालय की दिनांक 18-9-2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय में संपुक्त औद्योगिक सलाहकार श्री ए० सी० आर दास को इसी मंत्रालय में अपर औद्योगिक सलाहकार के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति की समयावधि को दिनांक 17-3-2004 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं।

श्री ए० सी० आर० दास की तदर्थ नियुक्ति की बहाई गई अवधि उन्हीं शर्तों द्वारा शासित होगी जो उपर्युक्त उल्लिखित अधिसूचना में बताई गई हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय**

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2004

सं० ए-19011/6/2004-प्रशा० — राष्ट्रपति, श्री पी० पी० सिंह को दिनांक 25-2-2004 के पूर्वाह्न से भारी उद्योग विभाग में उप निदेशक (लागत) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० के० शर्मा, अवर सचिव

## कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2004

सं० ए-12031/1/2003-स्था०—राष्ट्रपति, श्री पी० डब्ल्यू रालेगानकर, भा० आ० फं० से० (82) को कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 जनवरी, 2004

सं० ए-32013/1/2002 एनटीएच (प्रशासन) राष्ट्रपति, श्री भास्कर चक्रवर्ती, वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक-रबड़/प्लास्टिक/वस्त्र) को 7-3-2003 से पदोन्नति पर राष्ट्रीय परीक्षण शाला कोलकाता में 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक एस बी (भौतिक-रबड़/प्लास्टिक/वस्त्र) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. वे दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एच० एस० मल्ही, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च, 2004

फाईल संख्या ए०-12011/31/2002-प्रशा०—राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित वरिष्ठ तकनीकी सहायक श्री डी० के० सोनकर की 8000-275-13500 रुपए के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (सहकारिता) के पद पर नियुक्ति को 26-12-2002 से 24-11-2004 तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उनको सहायक निदेशक (सहकारिता) के ग्रेड में वरिष्ठता, नियमित नियुक्ति आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. इसको कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के यू० ओ० संख्या 700/स्थापना घ/04, दिनांक 25-2-2004 के तहत प्राप्त उनके अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस० के० नायक, अवर सचिव

फाईल सं० ए-12011/31/2002-प्रशा०—राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित सहायक निदेशक (सहकारिता) श्री एम० एस० अशोकन की 10000-325-15200 रुपए के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर उप निदेशक

(सहकारिता) के पद पर नियुक्ति को 26-12-2002 से 11-2-2004 तक अर्थात् उप निदेशक (सहकारिता) के ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति तक आगे बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उनको उप निदेशक (सहकारिता) के ग्रेड में वरिष्ठता, नियमित नियुक्ति आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. इसको कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के यू० ओ० सं० 700/स्थापना घ/04 दिनांक 25-2-2004 के तहत प्राप्त उनके अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस० के० नायक, अवर सचिव

सं० ए० 12011/31/2002-प्रशा०—राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित उप निदेशक (सहकारिता) डॉ० ए० के० मिश्रा की 12,000-375-16,500 रु० के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर निदेशक (सहकारिता) के पद पर नियुक्ति को 26-12-2002 से 24-11-2004 तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उनको निदेशक (सहकारिता) के ग्रेड में वरिष्ठता, नियमित नियुक्ति आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. इसको कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के यू० ओ० संख्या 700/स्थापना घ/04 दिनांक 25-2-2004 के तहत प्राप्त उनके अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस० के० नायक, अवर सचिव

## (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2004

सं० ए-38012/1/2003-स्था०-1—खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में उपसचिव श्री के० एल० मेहता अवि-वर्षिता की आयु होने पर 31 मार्च 2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 25 फरवरी 2004

सं० ए-32011/01/2001-प्रशा०-1(ए)—सहायक प्राध्यापिका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में निम्नलिखित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को 6500-200-10500/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में, उनके

नाम के सामने की गई तारीख से अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :-

नाम	तदर्थ नियुक्ति की अवधि
श्री एम. के. चौधरी	9-2-2004 से 8-8-2004 तक
श्रीमती रजनी रावत	9-2-2004 से 8-8-2004 तक

2. यह तदर्थ नियुक्ति उसी ग्रेड में नियमित करने का अधिकार प्रदान नहीं करती तथा की गई तदर्थ सेवा उसी ग्रेड में बरिष्ठता, पदोन्नति, पृष्ठ तथा नियमित करने आदि के लिए सम्मिलित नहीं की जाएगी। विभाग के पास संबंधित अधिकारियों को बिना कोई कारण बताए अथवा सूचना दिए इस तदर्थ नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

#### पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड)

नई दिल्ली 110003, दिनांक 1 मार्च 2004

सं० नं० 19-3/2003/एनएईबी-बी-6 — पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड में 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में अवर सचिव श्री बी० डी० रे० निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 29-2-2004 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

बी० सी० वेहरा, अवर सचिव

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० ए०-32013/1/2004-स्थापना-I—वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 8-2-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 10(I) ई-समन्वय/2004 के अनुसरण में, श्री अरुण शर्मा, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने 9 फरवरी, 2004 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 मार्च, 2004

सं० जेड० 28015/28/-2000-स्थापना-I—राष्ट्रपति, श्रीमती मंगा मूर्ति (आई०ई०एस० : 76) को 23-2-2004 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 14,300-400-18,300 रुपये के वेतनमान में अवर आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 मार्च, 2004

सं० ए० 11013/2/2004-स्थापना-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 20-2-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 5/1/2004-ई०को० (एम०एम०आई०) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी, श्री विष्णु शंकर प्रसाद, सीईएस (सड़क) (85), को 09-01-2004 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डा० बल्लभभाई आर० कथीरिया) के निजी सचिव के रूप में पांच वर्षों की उनकी शेष पदावधि के लिए, जैसा कि मंत्रियों के निजी सचिवों के लिए अनुमत है, अर्थात् 02-07-2008 तक अथवा जब तक वह मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त नहीं कर देते हैं अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के स्तर पर नियुक्त करते हैं।

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 मार्च 2004

सं० ए-12025/02/2003-जी०एच०एस०-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० सुशील कुमार माझी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II (ई०एन०टी०) में परिवर्तित करने पर नियुक्त करके उन्हें 22 मई, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन तैनात करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

दिनांक 11 मार्च, 2004

सं० ए-38020/1/2004-सी०एच०एस०-IV—अधिबर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग के सुपरटाइम ग्रेड की एक अधिकारी, डा० (श्रीमती) नीना बोहरा ने 31 अगस्त, 2003 के अपराह्न से डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कन्सल्टेंट (मनश्चिकित्सा) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

सं० ए० 38020/1/2004-सी० एच० एस०-IV—अधिबर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग के सुपरटाइम ग्रेड के एक अधिकारी, डा० वी०एच० तालिब ने 31 दिसम्बर, 2003 के अपराह्न से सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कन्सल्टेंट (विकृति विज्ञान) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

दिनांक 12, मार्च, 2004

सं० ए० 35014/17/2003-सी० एच० एस० V—  
राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर अरुणाचल प्रदेश सरकार की चिकित्सा अधिकारी डा० श्रीमती रंजना गर्ग को 6-10-2003 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में 8000-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 4 मार्च 2004

सं० ए० 11015/7/2000-एन० राष्ट्रपति, श्रीमति शीला मगवाना, उप नर्सिंग अधीक्षक, लेडी हाडिंग मेडिकल कलेज एवं श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली को 31-10-2003 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक, लेडी हाडिंग मेडिकल कलेज एवं श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नर्सिंग अधीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

महानौर प्रसाद, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 5 मार्च 2004

सं० ए० 12025/126/97-सी० एच० एस० I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० संजय अम्बोज लाकरा को 22-12-1997 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० संजय अम्बोज लाकरा को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2004

सं० ए० 38012/7/2003-प्र० I—सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप डा० वाई० एन० राव, उप महानिदेशक (एम) दिनांक 31-1-2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

करनैल सिंह, उप निदेशक प्रशा० (के०एस०)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 2004

सं० ए 38012/5/2003-प्रशा०-1—सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री एम० वाई० अंसारी, उपनिदेशक प्रशासन, दिनांक 31-12-2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

करनैल सिंह, उप निदेशक प्रशा० (के० एस०)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2004

सं० ए-19013/(11)2/97-ई०ए०-1—कृषि, लागत एवं मूल्य आयोग (सी०ए०सी०पी०), कृषि एवं सहकारिता विभाग में तदर्थ आधार पर, प्रतिनिधित्व की शर्तों पर, एक वर्ष की अवधि के लिए 18,400/-—22,400/- रु० के वेतनमान में सदस्य सचिव के पद पर नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी डा० राजीव मेहता को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में अपर सांख्यिकी सहायक के पद भार से दिनांक 4-2-2004 (अपराह्न) से मुक्त किया जाता है।

राजकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 फरवरी 2004

सं० ए०-19012/1/2004-ई०ए०-1—राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी डा० राजीव मेहता को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 18400/-—22,400/- रु० के वेतनमान में सदस्य सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर, प्रतिनिधित्व की शर्तों पर दिनांक 4-2-2004 की अपराह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा इस पद पर भर्ती नियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 मार्च, 2004

फा० सं० ए० 19012/10/2000-ई०ए०-1—राष्ट्रपति, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में, 18400/-—22,400/- रु० के वेतनमान में सदस्य (गैर सरकारी) के पद पर श्री एम० रघुपति की सन्निधि निम्नलिखित को आयोग में सदस्य (गैर सरकारी) के पद पर उनकी अवधि के अंत बीत जाने पर, दिनांक 1 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से समाप्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 मार्च, 2004

फा० सं० ए० 19012/9/2000-ई०ए०-1—राष्ट्रपति, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 18400/-—22,400/- रु० के वेतनमान में कार्यरत डा० टी० हक को 27 फरवरी, 2004 के अपराह्न से सदस्य (सरकारी) के पद के प्रभार से कार्यमुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2004

सं० 8-2/2004-नीति (ई०एस०)-पार्ट-1-कृषि और सह-कारिता विभाग के दिनांक 10-2-2004 की अधिसूचना सं० 9-2/2004 नीति (ई०एस०) के अनुक्रम में श्री आर०सी०ए० जैन ने अपनी अधिवाप्ति पर 29-02-04 को सचिव (कृषि व सहकारिता) के पद से सेवानिवृत्त होने पर दिनांक 1 मार्च 2004 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय कृषक आयोग के सदस्य सचिव के पद का निवृत्ति कार्यभार संभाल लिया है।

एस० के० जैन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० 27-2514/2003-स्था-1-सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर राष्ट्रपति श्री आर सी ए जैन, भा० प्र० से० (बिहार : 68) सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग को 29 फरवरी, 2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

दीपक सिंह, निदेशक (कामिक)

दिनांक 9 मार्च 2004

सं० 27-2536/2004-स्था-1-राष्ट्रपति श्रीमती राधा सिंह भा० प्र० से० (बिहार 69) को कृषि एवं सहकारिता विभाग में 29-2-2004 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक के लिए सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

दीपक सिंह, निदेशक (कामिक)

दिनांक 1 मार्च, 2004

सं० 12023/7/2002-स्था-5-राष्ट्रपति नारियल विकास बोर्ड में नियमित उप निदेशक तथा वर्तमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपायुक्त (फसल) के पद पर कार्यरत डा० टी० आई० मैथ्यूकुट्टी को उसी विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 14,300-400-18,300 रु० के वेतनमान में 16-2-2004 (पूर्वाह्न) से 27-1-2006 (अपराह्न) तक या आगामी आदेशों तक के लिए, इसमें जो भी पहले हो, अपर आयुक्त (विस्तार) के पद पर नियुक्त करते हैं।

दीपक सिंह, निदेशक (कामिक)

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 फरवरी, 2004

सं० ए० 12025/1/2001-प्रशासन-1-राष्ट्रपति, डा एम० के० अग्निहोत्री, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मकदूम, फराह, मथुरा (उत्तर प्रदेश) को दिनांक 23-2-2004 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए इस विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर 14,300-18,300 रुपए के

वेतनमान में संयुक्त आयुक्त (मांस और मछली उत्पादन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० के० कुर्मी, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 08 मार्च 2004

ए-12026/1/2004-प्रशासन-I-राष्ट्रपति, श्री एस० रघुनाथन, आई ए एस (एजीएमए-68) को दिनांक 08/03/2004 के पूर्वाह्न के आगामी आदेशों तक पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं

आर० के० चौधरी, निदेशक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 मार्च 2004

सं० 5-20/2001-एन आई-2-राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 6 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० 5-20/2001-एन आई-2 के क्रम में तथा राष्ट्रीय विकास वित्त एवं विकास निगम (एन० एच० एफ० डी० सी०) के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 50 के अनुसरण में, इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्रीमती जयति चन्द्रा को श्रीमती राजवती लघु, संयुक्त सचिव के स्थान पर राष्ट्रीय विकास वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में तीन वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

आर० राधाकृष्णन, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 मार्च 2004

सं० 3(3)/2003-का-1-राष्ट्रपति को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अपने संग्रह में बाकायदा रु० 16,400/- 450-20,000/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक 'एफ' के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वैज्ञानिक 'एफ' नियुक्त करते हैं।

कृष्ण बलदेव कश्यप, निदेशक

सं० 3(3)/2003-का-1-राष्ट्रपति जो ने विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'डी' को तत्काल प्रभाव से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 14300-400-18300/रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ई' नियुक्त किया है :-

1. श्रीमती हर्ष प्रभा (कर्मचारी कोड संख्या 225)
2. श्री एम० इज्जतुद्दीन (कर्मचारी कोड संख्या 227)
3. श्री रजनीश अग्रवाल (कर्मचारी कोड संख्या 227)
4. श्री एम० शेषगिरि राव (कर्मचारी कोड संख्या 179)

कृष्ण बलदेव कश्यप, निदेशक

सं० 3(3)/2003-का० I—राष्ट्रपति जी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'सी', जो इस समय प्रतिनिधित्व पर हैं, को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अपने संवर्ग में वापस आकर 12000-375-16500/- रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'डी' के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वैज्ञानिक 'डी' नियुक्त करते हैं :—

1. श्री बी० बी० तिवारी (कर्मचारी कोड संख्या 248)
2. श्री दीपक शर्मा (कर्मचारी कोड संख्या 252)

कृष्ण बलदेव कत्याल, निदेशक

सं० 3(3)/2003-का० I—राष्ट्रपति जी ने विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को तत्काल प्रभाव से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है :—

1. श्री सोमनाथ चन्द्र (कर्मचारी कोड संख्या 851)
2. श्री पुष्पव्रत घटक (कर्मचारी कोड संख्या 853)
3. एस० एस० सरमा (कर्मचारी कोड संख्या 847)
4. श्री शिवचरण सिंह (कर्मचारी कोड संख्या 260)

कृष्ण बलदेव कत्याल, निदेशक

सं० 3(3)/2003-का० I—राष्ट्रपति जी ने विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'ई' को तत्काल प्रभाव से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 16,400-450-24,000/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक 'एफ' नियुक्त किया है :—

1. श्रीमती रेणु बुद्धिराजा (कर्मचारी कोड सं० 190)
2. श्री अरविन्द कुमार (कर्मचारी कोड सं० 171)
3. श्री राकेश माहेश्वरी (कर्मचारी कोड सं० 186)
4. श्रीमती गीता कठपालिया (कर्मचारी कोड सं० 131)

कृष्ण बलदेव कत्याल, निदेशक

सं० 3(3)/2003-का० I—राष्ट्रपति जी ने विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'सी' को तत्काल प्रभाव से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 12000-375-16500/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक 'डी' नियुक्त किया है :—

1. श्रीमती उमा चौहान (कर्मचारी कोड संख्या 262)
2. श्री अनिल सागर (कर्मचारी कोड संख्या 247)

कृष्ण बलदेव कत्याल, निदेशक

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 दिसम्बर 2003

विवरण : डाक सेवा ग्रुप "बी" ग्रेड में पदोन्नति तथा तैनाती ।

सं० 9-2/2003-एसपीजी—महानिदेशक (डाक) निम्नलिखित अधिकारियों को अपने तत्काल कनिष्ठ अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से कल्पित रूप से और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से वास्तविक लाभ के साथ तथा अगले आदेशों तक डाक सेवा ग्रुप "बी" ग्रेड (वेतनमान 7500-250-12000/- रु०) में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	पदोन्नत अधिकारी का नाम	के बीच वरिष्ठता निर्धारित की गई है (अधिसूचना सं० 9-2/2003-एसपीजी दिनांक 17-6-2003 के अनुसार)	कल्पित पदोन्नति की तारीख (अर्थात् उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख)	पदोन्नति पर आर्बिट्रल सफल
सर्वश्री				
1.	के० सी० मोहन्ती	के० के० वर्गीज (क्रम सं० 15) और आर० के० यादव (क्रम सं० 16)	01-8-2003	उड़ीसा
2.	ए० एम० खान	एम० एम० हन्तुरे (क्रम सं० 74) और पी० पी० अंगल (क्रम सं० 75)	09-7-2003	महाराष्ट्र
3.	बी० एस० सैनी	भरत चन्द्र सेठी (क्रम सं० 68) और पी० एच० कुलकर्णी (क्रम सं० 70)	21-7-2003	दिल्ली
4.	गुलाब सिंह	मुन्नी प्रसाद सिंह (क्रम सं० 107) और एस० नागप्पा (क्रम सं० 108)	18-8-2003	हरियाणा

## 2. सतर्कता/अनुशासनिक मामला, यदि कोई हो।

यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ इस कार्यालय के स्थापन सं० 25-19/88-एसपीजी दिनांक 04-5-88 के साथ परिचालित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का० जा० सं० 22011/2/86-स्था० (क) दिनांक 12-01-88 में उल्लिखित कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला लम्बित हो जिसमें बाद में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापन सं० 22022/4/91-स्था० (क) दिनांक 14-9-92 द्वारा संशोधन किया गया था तथा इस कार्यालय के स्थापन सं० 25-19/88-एसपीजी दिनांक 13-10-92 के साथ परिचालित किया गया था, उसे इस कार्यालय से निशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना तैनाती के लिए कार्यमुक्त न किया जाए। जिन कर्मचारियों को कोई दण्ड दिया गया है, उन्हें तब तक पदोन्नत न किया जाए जब तक दण्ड की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। इस संबंध में एक रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत की जाए।

## 3. पात्रता के अध्यधीन पदोन्नति

यदि बाद में यह पाया जाता है कि कर्मचारी विषय से संबंधित नियमों या अनुदेशों के अधीन अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं था, तो उस मामले में उसकी पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी। ऐसे कर्मचारी, यदि कोई हो, के मामले में जिसकी परीक्षा के लिए स्वीकृति अनंतिम थी, उसकी पदोन्नति परीक्षा देने के लिए उसकी पात्रता के बारे में अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

## 4. परिवीक्षा अवधि

डाक सेवा ग्रुप "बी" में पदोन्नत किए गए कर्मचारी दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होंगे तथा इस प्रद पर जाने रहने के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्णय परिवीक्षा के दो वर्ष पूरे होने पर होगा। इस अवधि के दौरान यदि कोई कर्मचारी 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए छुट्टी पर जाता है, तो छुट्टी की अवधि के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ जाएगी।

## 5. प्रशिक्षण

कर्मचारी, फिलहाल, बिना किसी प्रशिक्षण के डाक सेवा ग्रुप "बी" में सीधे पदोन्नत किए जाएंगे। तथापि, जब किसी निदेशक, पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेगा होगा।

## 6. वेतन निर्धारण के लिए विकल्प

यदि अधिकारी एफआर-22(i)(क)(1) के अधीन वेतन निर्धारण के लिए तारीख का चयन करने का विकल्प देना चाहता है, तो वह पदोन्नति की तारीख से एक माह के भीतर ऐसा कर सकता है।

## 7. कृपया संबंधित चार्ज रिपोर्ट यथा समय इस कार्यालय को भेज दी जाएं।

आर० एस० ब्राह्मण  
सहायक महानिदेशक (एसपीजी)

दिनांक 16 फरवरी 2004

विषय : डाक सेवा ग्रुप "बी" ग्रेड में पदोन्नति तथा तैनाती।

सं० 9-2/2003-एस० पी० जी०—महानिदेशक (डाक) निरीक्षक लाइन के निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अगले आदेशों तक डाक सेवा ग्रुप "बी" ग्रेड (वेतनमान 7500-250-12000/- इ०) में नियमित आधार पर स्थापनापन रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. डाक सेवा ग्रुप "बी" ग्रेड में पदोन्नत होने पर अधिकारियों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित मूकिक में तैनात किया जाता है :-

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	वैच	सकिल	पदोन्नति पर आधारित सकिल
1	2	3	4	5
	सर्वथी			
1.	फूल सिंह	1980	दिल्ली	डाक जीवन बीमा निगम निदेशक
2.	मदन मोहन विनायक	-वही-	हरियाणा	हरियाणा
3.	शाम दास नागपाल	-वही-	हरियाणा	हरियाणा
4.	एस० विजय	-वही-	तमिलनाडु	तमिलनाडु
5.	पी० सत्यनारायण	-वही-	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
6.	चन्द्र मोहन श्रीवास्तव	-वही-	राजस्थान	राजस्थान
7.	बिपद तारण दफाबार	-वही-	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
8.	के० बी० जॉर्ज	-वही-	केरल	केरल

1	2	3	4	5
9.	मुनीष चन्द श्रीवास्तव	1980	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
10.	के० अजिनेयुलु	-वही-	आंध्र प्रदेश	झारखंड
11.	बी० सुब्बीयन	-वही-	तमिलनाडु	गुजरात
12.	सदानंद तिवारी	-वही-	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
13.	तटप्पा ज्योति	-वही-	कर्नाटक	किसी
14.	बी० एल० जोस	-वही-	केरल	केरल
15.	बी० एस० पटेल	-वही-	मध्य प्रदेश	जम्मू व कश्मीर
16.	रतिकांत चक्र	-वही-	उड़ीसा	पंजाब
17.	अनंत कुमार गांगुली	-वही-	उड़ीसा	दिल्ली
18.	कामता प्रसाद सोनी	-वही-	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
19.	पी० नागेश्वर राव	-वही-	आंध्र प्रदेश	झारखंड
20.	एम० वाई० योहानन	-वही-	केरल	केरल
21.	लहना सिंह	-वही-	हरियाणा	जम्मू व कश्मीर
22.	अविनाश चन्द्र नय्यर	-वही-	हरियाणा	जम्मू व कश्मीर
23.	बासिंश्वर के०बी० (एपीएस)	-वही-	सेना डाक सेवा	सेना डाक सेवा
24.	आर० पी० यादव	-वही-	मध्य प्रदेश	उत्तरांचल
25.	साधुचरण महापात्र	-वही-	उड़ीसा	जम्मू व कश्मीर
26.	के० नरसिन्हुलु	-वही-	आंध्र प्रदेश	पंजाब
27.	बी० एल० देवांगत	-वही-	छत्तीसगढ़	पंजाब
28.	टी०आर० सूत्रमणियन	-वही-	तमिलनाडु	पंजाब
29.	पूरण सिंह	-वही-	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल
30.	मणि मोहन दास	-वही-	पश्चिम बंगाल	उत्तर पूर्व
31.	अशोक कुमार दास	-वही-	पश्चिम बंगाल	उत्तर पूर्व
32.	मुनि देव मिश्रा	-वही-	पश्चिम बंगाल	पीटीसी, दरभंगा
33.	के० स्वामीनायडु	-वही-	आंध्र प्रदेश	पंजाब
34.	वाई०एन० मोहन (एपीएस)	-वही-	सेना डाक सेवा	सेना डाक सेवा
35.	धर्म पाल गुप्ता	-वही-	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल
36.	ए० टी० जौशी	-वही-	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
37.	कालि कृष्ण	-वही-	उत्तर पूर्व	उत्तर पूर्व
38.	राम भरत गोस्वामी	-वही-	हरियाणा	जम्मू व कश्मीर

### 3. सतर्कता/अनुशासनिक मामला, यदि कोई हो।

यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ इस कार्यालय के ज्ञापन सं० 25-19/88-एसपीजी दिनांक 04-5-88 के साथ परिचालित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का० जा० सं० 22011/2/86-स्था० (क) दिनांक 12-01-88 में उल्लिखित कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला लंबित हो जिसमें बाद में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं० 22022/4/91-स्था० (क) दिनांक 14-9-92 द्वारा संशोधन किया गया था तथा इस कार्यालय के ज्ञापन सं० 25-19/88-एसपीजी दिनांक 13-10-92 के साथ परिचालित किया गया था, उसे इस कार्यालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना तैनाती के लिए कार्यमुक्त न किया जाए। जिन कर्मचारियों को कोई दंड दिया गया है, उन्हें तब तक पदोन्नति न किया जाए जब तक दंड की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। इस संबंध में एक स्विट तत्काल प्रस्तुत की जाए।

### 4. परिवीक्षा अवधि

डाक सेवा ग्रुप 'बी' में पदोन्नति किए गए सभी कर्मचारी दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होंगे तथा इसे पद पर बैठे रहने के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्णय परिवीक्षा के दो वर्ष पूरे होने पर होगा। इस अवधि के दौरान यदि कोई कर्मचारी 36 दिनों से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी पर जाता है, जो छुट्टी की अवधि के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ जाएगी।

## 5. प्रशिक्षण

सभी कर्मचारी, फिलहाल, बिना किसी प्रशिक्षण के डाक सेवा ग्रुप 'बी' में सीधे पदोन्नत किए जाएंगे। तथापि, जब कभी निदेशक, पोस्टा एंड टेलीग्राफ, गाजियाबाद द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

## 6. वेतन निर्धारण के लिए विकल्प

जो अधिकारी एफआर-22(1)(क)(1) के अधीन वेतन निर्धारण के लिए तारीख का चयन करने का विकल्प देना चाहते हैं, वे पदोन्नति की तारीख से एक माह के भीतर ऐसा कर सकते हैं।

## 7. अपने मूल सिकल से बाहर आबंटित किए गए अधिकारी

आबंटित सिकल तत्काल तैनाती आदेश जारी करेंगे और ये आदेश हर हालत में 28-2-2004 तक जारी हो जाने चाहिए। इस समय ये कर्मचारी जिन सिकलों में काम कर रहे हैं, वे उन सिकलों से जिनमें उन्हें तैनात किया गया है, तैनाती आदेश प्राप्त होने पर कर्मचारियों को कार्यमुक्त करेंगे। यदि कोई कर्मचारी पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है, तो वह एक पखवाड़े की अवधि के भीतर लिखित में पदोन्नति प्रस्ताव ठुकरा सकता है। ऐसा न करने पर संबंधित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा उन्हें अनिवार्यतः कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। संबंधित सिकल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अपने सिकल में अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने तथा अधिकारियों को कार्यमुक्त करने के बारे में समेकित रूप में एक रिपोर्ट 10-10-2004 तक निदेशालय को अवश्य भेजेंगे।

## 8. कृपया संबंधित चार्ज रिपोर्ट यथा समय इस कार्यालय को भेज दी जाएं।

आर० एस० यादव, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 05 मार्च 2004

सं० ई० आर० बी०-1/94/6/2—निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (प्रोबेशनर) का उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों के पूर्वाह्न से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में मूल रूप से नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं०	नाम	पृष्ठिकरण की तारीख
1.	कु० जी० प्रिया सुदर्शनी	11-01-2003
2.	श्री विजय बी० वाघमारे	12-01-2003

बी० एन० माथुर, सचिव  
रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

दिनांक 09 मार्च 2004

सं० ई० आर० बी०-1/2004/2/1—श्री टी० के० बिस्वास, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा, सलाहकार (यांत्रिक इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड को 27-2-2004 के पूर्वाह्न से 24050—26000/- रु० के ग्रेड में अपर सदस्य (यांत्रिक इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बी० एन० माथुर, सचिव  
रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

24050—26000/- रु० के ग्रेड में अपर सदस्य (निर्माण), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बी० एन० माथुर, सचिव  
रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

सं० ई० आर० बी०-1/2004/2/3—श्री बुध प्रकाश, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल इंजीनियर सेवा, सलाहकार (सिविल इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड को 26-2-2004 के अपराह्न से 24050—26000/- रु० के ग्रेड में अपर सदस्य (सिविल इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बी० एन० माथुर, सचिव  
रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

सं० ई० आर० बी०-1/2004/2/8—श्री एन० के० अनेजा, सहायक बिजली इंजीनियर (विकास), रेलवे बोर्ड (ग्रेड 7500-12000/- रु०) को 06-02-2004 (अपराह्न) से, अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर 10,000—15,200 रु० के ग्रेड में उप निदेशक, बिजली इंजीनियरी (विकास), रेलवे बोर्ड के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए पदोन्नत किया जाता है।

बी० एन० माथुर, सचिव  
रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

दिनांक 10 मार्च 2004

सं० ई० आर० बी०-1/2004/2/3—श्री आर० सुन्दरराजन, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल इंजीनियर सेवा, सलाहकार (निर्माण), रेलवे बोर्ड को 26-2-2004 के अपराह्न से

सं० ई० आर० बी०-1/2003/2/85—सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2001 के परिणामों के आधार पर, सुश्री प्रिया गोपालकृष्णन, वैयक्तिक सहायक, रेलवे बोर्ड (देतनमान

5500-9000/- रु०) को 22-12-2003 के पूर्वाह्न से 6500-10500/- रु० के धेतनमान में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

वी० एन० माथुर, सचिव/रेलवे बोर्ड एवं अपर सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2004

सं० ए-12025/01/20-आर० एस०—नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, श्री आर० राजामणि अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के पश्चात् दिनांक 29 फरवरी, 2004 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस० राजगोपालन, उप सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2004

सं० 8/2004 फाइल सं० ए-32013/2/2002-प्रशा० 1—राष्ट्रपति केन्द्रिय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के मुख्य अभियन्ता/सदस्य-सचिव (क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड) के ग्रेड में रु० 5900-6700 (संशोधन पूर्व) के धेतनमान में, उनके सम्म के सम्मने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेश जारी होने तक के लिए नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
	(सर्वश्री)	
1	एस० के० मोहन राम	21-01-2004 (पूर्वाह्न)
2	डी० के० शर्मा	21-01-2004 (पूर्वाह्न)
3	के० श्रीनिवासाराम	28-01-2004 (पूर्वाह्न)
4	ए० के० शर्मा	21-01-2004 (पूर्वाह्न)
5	अस्तिषोष रे	28-01-2004 (पूर्वाह्न)
6	एम० के० गर्ग	21-01-2004 (पूर्वाह्न)
7	ए० के० पुरी	21-01-2004 (पूर्वाह्न)
8	एम० एल० शर्मा	27-02-2004 (पूर्वाह्न)

विकास चंद्र काजला, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2004

सं० 7/6/2002-जी० डब्ल्यू० I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर श्री संतोष कुमार सिन्हा, संयुक्त महाप्रबंधक, प्रो आयरन फाउन्ड्री, जबलपुर को दिनांक 20-2-2004 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले है, के लिए प्रतिनिधित्व आधार पर 14300-400-18300 रु० के धेतनमान में निवेशक (प्रशासन) पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन एस० सैनी, अवर सचिव

सं० 7/10/2003-जी० डब्ल्यू० I—इस मंत्रालय के दिनांक 22 अक्टूबर, 2003 के समसंख्यक आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में वैज्ञानिक 'ग' (धेतनमान 10000-15200 रु०) के ग्रेड में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पैनल वर्ष 1998 के लिए प्लेक्जिबल कंपलीमेंटिंग स्कीम (एफ सी एस) के अंतर्गत 12000-375-16500 रुपये के धेतनमान में वैज्ञानिक 'ग' के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वैज्ञा० ग के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	डॉ० बी० सी० मेहता वैज्ञा० ग० (रसायन शास्त्र)	22-10-2003
2.	डी० के० गोयल वैज्ञा० ग० (रसायन शास्त्र)	22-10-2003
3.	शादी लाल कपूर, वैज्ञा० ग० (रसायन शास्त्र)	23-10-2003
4.	एम० के० एम० राम, वैज्ञा० ग० (जल मौसम विज्ञान)	22-10-2003
5.	बी० श्याम सुन्दर, वैज्ञा० ग० (जल मौसम विज्ञान)	22-10-2003
6.	अकरार हुसैन, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	22-10-2003
7.	टी० एम० पार्थसारथी, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	23-10-2003
8.	ए० के० मिश्र, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	22-10-2003
9.	अब्दुल जमील, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	—वही—
10.	डॉ० ए० एम० लाल, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	—वही—
11.	सुभाष दत्ता, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	—वही—
12.	एस० के० बंसल, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	—वही—
13.	पी० के० पारचुरे, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	—वही—
14.	एस० बी० एन० सत्यनारायण राव, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	—वही—
15.	सुनील कुमार, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	—वही—
16.	उत्पल गोगोई, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	10-11-2003
17.	संजय मरवाहा, वैज्ञा० ग० (जल भूविज्ञान)	23-10-2003

1	2	3
18.	टी० एल० चक्रवर्ती, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
19.	ए० दामोदर राव, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
20.	अनूप नागर, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
21.	सी० पौल प्रभाकर, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
22.	डी० सुब्बा राव, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
23.	जी० सुदर्शन, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
24.	बी०बी भट्टाचार्य, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
25.	परविन्दर सिंह, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
26.	सुनील कुमार जैन, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	27-10-2003
27.	जे०एस० शर्मा वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
28.	डो०पी० पति, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
29.	ए० के० अग्रवाल, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
30.	वी० कृष्णम्, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	23-10-2003
31.	एल० एल० पी० मिश्र, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
32.	के० एम० विश्वनाथ, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
33.	डा० (श्रीमती) उमा कपूर, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
34.	वाई० बी० शैशिक, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
35.	जी० सी० सी० आर० जी० एस० प्रसाद राव, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
36.	एस० के० सामंत, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
37.	एस० एटन० भट्टाचार्य, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
38.	के० आर० सूर्यनारायण, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
39.	डा० डी० एस० पाण्डेय, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
40.	अमलान उग्रोतिकर, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003

1	2	3
41.	पी० के० जैन, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
42.	एस० एन० सिन्हा, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
43.	के० के० सिंह, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	23-10-2003
44.	ओ० एन० तिवारी, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	27-10-2003
45.	डा० पी० के० नायक, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
46.	पी० एन० राव, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
47.	बी० के० कल्लापुर, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	23-10-2003
48.	प्रभुल कलिता वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
49.	नरम कुमार जैन, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
50.	अरिजित डे, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
51.	ए० सुब्बाराज, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	27-10-2003
52.	जी० भास्कर राव, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
53.	के० वी० कुमार, वैज्ञा० ग० (भूमीतिका)	22-10-2003
54.	एस० के० गुप्ता, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
55.	आई० के० शर्मा, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003
56.	डा० एम० एन० खान, वैज्ञा० ग० (जलभूविज्ञान)	22-10-2003

2. ओ० ए० सं० 85/2002 और ओ० ए० सं० 429/98 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जम्शपुर पीठ द्वारा पारित 6 जनवरी, 2003 के सामान्य आदेश के अनुपालन में एफ सी एस के अंतर्गत श्री आई० के० शर्मा और डा० एम० एन० खान पर विचार करते हुए उन्हें वैज्ञानिक 'घ' के ग्रेड में नियुक्त किया गया है।

3. एफसीएस के तहत वैज्ञानिक 'घ' के ग्रेड में उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति स्वस्थाने और संबंधित अधिकारियों के लिए वैयक्तिक होगी तथा इस कारण से वैज्ञानिक 'घ' के निचले ग्रेड में कोई विशिष्ट रिक्ति नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद उच्च ग्रेड अर्थात् वैज्ञानिक 'घ'

में जब तक वे रहेंगे, इस अवधि के लिए, डाउनग्रेडेड माना जाएगा और जैसे ही ये अधिकारी उच्च पद खाली करते हैं तब उनको पद अपग्रेडेड माना जाएगा।

4. उपरोक्त आदेशित पदोन्नतियां, श्री अख्तर जमाल और अन्य द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण लखनऊ पीठ में दायर मूलवाद सं० 74/97 संबंधी न्यायालयी मामले के अन्तिम निर्णय और इस विषय पर लंबित/निर्णीत अन्य न्यायालयी मामलों के आधार पर होगी।

सोहन एस० सैनी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2003

सं० 8/2004 [फा० सं० 25/1(8)/2002]-स्थापना एक—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2001 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री अनिन्दया घोष को दिनांक 15-9-2003 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु० 8000-13500/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्री अनिन्दया घोष कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाते पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

दिनांक 16 मार्च 2004

सं० 9/2004 [फा० संख्या 19/8/2004-स्थापना-1]—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा के अवर सावधिक वेतनमान के अधिकारी, श्री सी० आर० नम्बिसन, सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग, दिनांक 31-01-04 (अपराह्न/पूर्वाह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2004

सं० 22/2004 (8/5/2004-प्रशा०-II)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशु-

लिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री के० भास्कर राव (इर्ला सं० 14704) दिनांक 31-01-2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विनय कुमार सेखड़ी, अवर सचिव

सं० 23/2004 (8/1/2004-प्रशा०-II)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव, डा० जी० आर० गुप्ता दिनांक 31-1-04 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विनय कुमार सेखड़ी, अवर सचिव

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय  
(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2004

सं० के-11011/5/2001-डीडीए—केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा खान विभाग में अपर सचिव श्री मधुकर गुप्ता आईएस (यूएल : 71) को श्री अनिल बैजल, आईएस (एजीएमयू : 69) के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक अपर सचिव के रैंक और वेतन पर नियुक्त किया जाता है।

एस० एन० गुप्ता, अवर सचिव

(शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 मार्च 2004

सं० ए-23016/1/97-एच-II/एच-IV—भारतीय सांख्यिकी सेवा (आई एस एस) के सीनियर टाईम स्केल (एस टी एस) में तदर्थ आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 26-9-2003 के कार्यालय आदेश सं० 12015/8/2003-आई एस एस के अनुसरण में श्री एम० बी० आर० शास्त्री, जूनियर टाईम स्केल (जे टी एस) आई एस एस अधिकारी को अगले आदेश होने तक तदर्थ आधार पर 29-1-2004 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन में उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

हजारी लाल, निदेशक (आवास)

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, March 12, 2004

No. A. 22012/1/2004-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Rajinder Sharma, presently working as Under Secretary on personal upgradation basis, to the Grade-I of Central Secretariat Service i.e. as Under Secretary on ad-hoc basis in the Prime Minister's Office, with effect from the forenoon of 16.10.2003, until further orders.

2. The appointment of Shri Sharma is governed by the conditions stipulated in the Department of Personnel & Training's O.M. No. 31/10/2003-EO(MM-I) dt. 16.10.2003 and dt. 13.2004.

P.K. ROY, Under Secy.

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 9th March 2004

No. A-19014/2/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri G.C. Chandola, Asstt. Director Gr.-I (Chem) in the Small Industries Services Institute, Okhla, New Delhi as Deputy Director in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat on deputation basis for a period of three years with effect from the forenoon of 24th February, 2004 or until further orders, whichever takes place earlier.

SUNIL MISHRA, Deputy Secy.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 9th March 2004

No. 12/1/3/2003-I.—The Joint Secretary, Department of Space, is pleased to appoint Shri K. Hariharan, Project Assisat, Department of Space, on promotion, as Section Officer in the Department of Space in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 with effect from the forenoon of March 04, 2004 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi-110 001, the 5th March 2004

A-12023/5/93-Admn.III(LA).—On attaining the age of 62 years, Shri Satish Chandra, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal stand retired on superannuation from government service with effect from the afternoon of 1st March 2004 in accordance with rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

YASHWANT SINGH, Under Secy.

## (DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 5th March 2004

No. K-13025/1/2004-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India,

the President is pleased to appoint Shri Justice Pradip Kumar Mohanty, Additional Judge of the Orissa High Court, to be a Judge of the Orissa High court with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Joint Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th March, 2004

No. I-14011/23/2003-IPS.I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Uttar Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the cadre of Uttar Pradesh under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

## SELECT LIST-2001

S.No.	Name	Date of Birth
1.	Shri Lalji Shukla	01.07.1955

S.P. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 15th March 2004

No. I-14012/8/2003-IPS.IV.—In exercise of powers conferred under Rule-6 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following candidates to the Indian Police Service (on probation) with effect from the dates mentioned against their names, on the basis of their qualifying the Civil Services Examination, 2002.

S.No.	Name of the IPS Probationer	Date of Joining
1	2	3
	S/Sh.	
1.	Mukesh Kumar Singh	01.09.2003 (FN)
2.	Rajesh Kumar	01.09.2003 (FN)
**3.	Om Prakash Pal	01.09.2003 (AN)
4.	Sundarraaj P.	05.09.2003 (AN)
5.	Ratan Lal	01.09.2003 (FN)
6.	Rakesh Kumar Arya	01.09.2003 (FN)
**7.	Pupul Dutta Prasad	01.09.2003 (FN)
8.	Ashish Choudhary	01.09.2003 (FN)
**9.	Pawar Pravin Madhukar	01.09.2003 (FN)
10.	Ch. Nagaraju	01.09.2003 (FN)
**11.	Rajesh Pradhan	01.09.2003 (FN)
**12.	Anish Prasad	01.09.2003 (FN)
13.	H. Thanghaulien Gangte	01.09.2003 (FN)
14.	Ms. Sonia Verma	07.09.2003 (AN)

1	2	3
	S/Sh.	
**15.	Ramakant Gupta	01.09.2003 (FN)
**16.	Ms. Kavita Jalan	01.09.2003 (FN)
**17.	Himanshu Kumar Lal	01.09.2003 (FN)
18.	Nikhil Kumar Kanodia	01.09.2003 (FN)
19.	Shefeen Ahamed K.	01.09.2003 (FN)
**20.	Sukhchain Singh	01.09.2003 (FN)
**21.	Nitin Deep Blaggan	01.09.2003 (FN)
22.	Hinglajdan	05.09.2003 (FN)
23.	Manoj Tiwari	01.09.2003 (FN)
**24.	Kotnis Ashwin Mukund	01.09.2003 (FN)
**25.	Pradip Kumar	01.09.2003 (FN)
26.	Balakrishnan V.	05.09.2003 (AN)
27.	Ms. Vimmi Sachdeva	01.09.2003 (FN)
**28.	Ajay Kumar Mishra	01.09.2003 (FN)
29.	Katarpu Sunil Emmanuel	01.09.2003 (FN)
**30.	B.V.R. Chandra Purushottam	22.12.2003 (FN)
**31.	Shahnawaz Qasim	22.12.2003 (FN)
**32.	Akhilesh Kumar Singh	22.12.2003 (FN)
33.	Anurag	22.12.2003 (FN)
**34.	Vikas Vaibhav	22.12.2003 (FN)
**35.	Dipanker Trivedi	22.12.2003 (FN)
**36.	Ashok Kumar	22.12.2003 (FN)
**37.	Akhilesh Kumar Jha	22.12.2003 (FN)
38.	Keshav Ram	22.12.2003 (FN)
**39.	Vidhi Kumar Birdi	22.12.2003 (FN)
40.	Thrilok Chandra K.V.	22.12.2003 (FN)
41.	N. Satheesh Kumar	22.12.2003 (FN)
**42.	Sidhartha Shashni	22.12.2003 (FN)
**43.	Phool Chand Meena	22.12.2003 (FN)
**44.	Harinarayanachari Mishra	29.12.2003 (FN)
45.	Jasbir Singh	22.12.2003 (FN)
**46.	Sanjay Kumar Kaushal	22.12.2003 (FN)
**47.	Amit Kumar Singh	22.12.2003 (FN)
**48.	Sudhakar	22.12.2003 (FN)
**49.	Nachiketa Jha	22.12.2003 (FN)
**50.	Modak Rajesh Dinesh Rao	22.12.2003 (FN)
**51.	Raman Ravinath M. V.A.P.	22.12.2003 (FN)
**52.	Vasanthakumar N.	22.12.2003 (FN)
**53.	Satyendra Mathuria	26.12.2003 (FN)
54.	Pranav Kumar	01.01.2004 (FN)

2. The appointment of IPS Probationers mentioned at Serial Nos. 3, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 and 53 against whose names asterik has been marked, to Indian Police Service is provisional and subject to necessary clearance from the Department of Personnel and Training.

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

No. I-18011/11/2003-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Vivek Kishore, IPS (AGMU:1999), in Indian Police Service with effect from 10.01.2003.

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

#### DIRECTORATE OF CO-ORDINATION

(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 08th March 2004

No. A 17011/10/2004-Admn. I—Shri Suresh Karan, a permanent, Extra Assistant Director (Cipher) of this Directorate expired on 12.02.2004.

KAMALESH DEKA  
Director Police Telecommunications

#### MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 11th March 2004

No. 23012/1/2004-AIS. III—Thiru M. Kalaivanan, IAS (TN: 80) appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Service Examination 1979 and borne on the Cadre of Tamil Nadu is permitted to change his name from Thiru M. Kalaivanan to Thiru M. Mutia Kalaivanan and will accordingly be recognised as Thiru M. Mutia Kalaivanan for all official purposes.

AQEEL AHMAD, Dy Secy

The 12th March 2004

Subject:— Unauthorised absence from duty by Dr. G.S. Jaiya, IAS (AGMU:78) since 14.11.1988—Issue of Show Cause Notice.

No. 11019/5/2003-(AIS-III)—The undersigned is directed to say that in terms of Rule 7(2) of the AIS (Leave) Rules, 1955, "no member of the Service shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years". Rule 7(2) ibid further provides that:

"unless the Central Government, in view of the special circumstances of the case, determines otherwise, a member of the Service who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years

other than on foreign service whether with or without leave, shall be deemed to have resigned from the service.

Provided that a reasonable opportunity to explain the reason for such absence shall be given to the member of service before the provision of sub-rule (2) are invoked.

2. Dr. G.S. Jaiya, IAS (AGMU:78) was granted Cadre Clearance for Foreign assignment with WIPO for a period of two years from 14th November, 1993. This period was extended by three years upto 13th November, 1998 when he completed the maximum permissible five years to be on foreign service. His request for extension for five years from 13th November, 1998 to 13th November, 2003 was rejected as he had not completed 25 years of service as on date of commencement of the foreign service. He is unauthorisedly absent from duty w.e.f. 14th November, 1998. Dr. Jaiya, IAS (AGMU:78) has not reported back for duty to his cadre, as on date i.e. the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi. He is absent from his cadre for a period exceeding five years since 14th November, 1998. Therefore, it attracts the provision of Rule 7(2) of the AIS (Leave) Rules, 1955 quoted above.

3. A Show Cause Notice was issued in this regard on 30.12.2003 at his last known address viz. 12, Rue Michel Servet, 1206 Geneva, Switzerland and through the Ministry of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi where he was on Central Deputation. However, no reply explaining the reasons for his continuous absence for more than five years has been received.

4. Dr. G.S. Jaiya, IAS (AGMU: 78) is, hereby, called upon to show cause as to why he should not be deemed to have resigned from the Indian Administrative Service in terms of provisions of Rule 7(2) of the All India Services (Leave) Rules, 1955 as mentioned above, for continuously remaining absent from duty for a period exceeding five years. The reply of Dr. G.S. Jaiya should reach the undersigned within a period of one month from the date of publication of this notification failing which it will be presumed that he has no explanation to offer and the case will be processed for treating him as deemed to have resigned under the rule *ibid*.

AQEEL AHMAD, Dy. Secy.

Subject:— Unauthorised absence from Cadre by Shri M.S. Gill, IAS (MH:86) since 16.05.1998—Issue of Show Cause Notice.

No. 11019/43/2003-(AIS-III)—The undersigned is directed to say that in terms of Rule 7(2) of the AIS (Leave) Rules, 1955, "no member of the Service shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years". Rule 7(2) *ibid* further provides that:

"unless the Central Government, in view of the special circumstances of the case, determines otherwise, a member of the Service who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years other than on foreign service whether with or without leave, shall be deemed to have resigned from the service.

Provided that a reasonable opportunity to explain the reason for such absence shall be given to the member of service before the provision of sub-rule (2) are invoked.

2. M.S. Gill, IAS (MH:86) was granted Cadre Clearance for Foreign assignment with World Bank for a period of two years from 17th May, 1993. This period was extended by three years upto 16th May, 1998 when he completed the maximum permissible five years to be on foreign service. His request for extension for five years from 17th May, 1998 was rejected as extension beyond five years was not permissible. He is unauthorisedly absent from duty w.e.f. 17th May, 1998. Shri Gill, IAS (MH:86) has not reported back for duty to his cadre, as on date. He is absenting himself for a period exceeding five years since 17th May, 1998. Since the continuous absence from duty has been for more than five years, it attracts the provision of Rule 7(2) of the AIS (Leave) Rules, 1955 quoted above.

3. A Show Cause Notice was issued in this regard on 30.12.2003 at his last known address viz. C/o Shengman Zhang, Managing Director. The World Bank, Washington D.C. 20433, USA and through the Controlling Authority, i.e. Government of Maharashtra. However, no reply explaining the reasons for his continuous absence for more than five years has been received.

4. Shri M.S. Gill, IAS (MH:86) is, hereby, called upon to show cause as to why he should not be deemed to have resigned from the Indian Administrative Service in terms of provisions of Rule 7(2) of the All India Service (Leave) Rules, 1955 as mentioned above, for continuously remaining absent from duty for a period exceeding five years. The reply of Shri Gill should reach the undersigned within a period of one month from the date of publication of this notification failing which it will be presumed that he has no explanation to offer and the case will be processed for treating him as deemed to have resigned under the rule *ibid*.

AQEEL AHMAD, Dy. Secy.

No. 14012/10/2003-AIS(III)—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the State

Cadre of AGMUT with effect from the date shown against him:—

Name	Batch	Date of Confirmation
Shri Sudhir Kumar	1999	20.09.2001

AQEEL AHMAD, Dy. Secy.

New Delhi, the 9th March 2004

No. 14015/11/2003-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists of the year 2003 for Tripura segment of the joint Manipur-Tripura Cadre containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Tripura prepared by the Selection Committee in its meeting held on 21st November, 2003, towards filling up 03 (three) vacancies for the year 2003 in the Indian Administrative Service, Manipur-Tripura Cadre (Tripura Segment):—

Select List 2003

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Sh. Kishore Ambuly            | 08.09.1951 |
| 2. Sh. Jitdas Tripura (ST)       | 01.03.1949 |
| 3. Sh. Lalhminglina Darlong (ST) | 05.05.1950 |

K.K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/11/2003-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954 the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Tripura Cadre to the Indian Administrative Service against the vacancies of the year 2003 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Tripura segment of the joint Manipur-Tripura Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

1. Sh. Kishore Ambuly
2. Sh. Jitdas Tripura (ST)
3. Sh. Lalhminglina Darlong (ST)

K.K. SHARMA, Desk Officer

The 11th March 2004

No. 13017/4/99-AIS(I)—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Punjab and Tamil Nadu, the Central Govt. hereby accords approval for extension of deputation of

Shri J.M. Balamurugan, IAS (RR:94), borne on the IAS Cadre of Punjab, for service under the Govt. of Tamil Nadu for a further period of two year beyond 18.1.2004.

K.K. SHARMA, Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 2nd January 2004

No. 01/PA-II/2004.—On attaining the age of superannuation, Shri Y.L. Sharma, Under Secretary in the Ministry of External Affairs, New Delhi, retired from Government Service in the afternoon of 31st December 2003.

R.N. VATS, Under Secy.

The 12th February 2004

No. 05/PA-II/2004.—On attaining the age of superannuation, Shri R. Ganesh, Under Secretary in the Ministry of External Affairs, retired from Government Service in the afternoon of 31st August, 2003.

R.N. VATS, Under Secy.

New Delhi, the 25th February 2004

No. 2/PB/2004.—The President is pleased to appoint Ms. Tajinder Pal Chawla, an officer of Grade II of the Stenographer's Cadre of IFS(B) to officiate in Grade I of the same cadre with effect from 1.1.2004 in terms of Ministry's Office Order No. Q/CAD/584/2/2003 dated 30th May 2003.

Ms. Tajinder Pal Chawla has assumed charge of the post of Private Secretary at her place of posting with effect from the date mentioned above.

BHUPENDER KUMAR, Administrative Officer (PB)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 25th February 2004

No. 12 : (F. No. A.19013/2/2004-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Ms. Amrita Mishra, IRS as Under Secretary (Inv.I) in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 16.2.2004 (FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE  
ESTABLISHMENTS

New Delhi, the 5th March 2004

No. A-38012/1/2004-Ad.II.—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri Amal Krishan Pal, Joint Commissioner of Central Excise, Kolkata-I from the

Indian Customs and Central Excise Service, Group 'A' with effect from 31.03.2004 (AN).

K. KIPGEN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 5th March 2004

No. A-12011/15/01-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Amitava De, Manager, Government of India Press (PL Unit), Faridabad as Manager (Press) in the Budget Press of this Department on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- with effect from 1.3.2004 (FN) for a period of three years or till the date of his superannuation whichever is earlier.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

No. A-12011/02/2004-Admn.II.—In continuation of this Department's (Banking Division) Notification No. A-19011/231/2002-Estt. dated 28th February, 2003, the President is pleased to extend the appointment of Ms. Angela Stephen as Principal Private Secretary in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis for a further period upto 30.06.2004 or till regular officers become available, which is earlier.

2. Ad-hoc promotion of Ms. Angela Stephen will not bestow on her any claim for regular appointment in Principal Private Secretary's Grade of the CSSS and the service rendered by her on ad-hoc basis will not be counted for the purpose of seniority in the grade of eligibility for promotion to the next higher grade and she will be reverted as and when Select list persons are available.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

No. A-12011/02/2004-Admn.II.—In continuation of this Department's Notification No. A-12011/03/2003-Admn.II dated 1st August, 2003, the President is pleased to extend the appointment of Shri B.S. Negi as principal Private Secretary in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis for a further period upto 30.06.2004 or till regular officers become available, whichever is earlier.

2. Ad-hoc promotion of Shri Negi will not bestow on him any claim for regular appointment in Principal Private Secretary's Grade of the CSSS and the service rendered by him on ad-hoc basis will not be counted for the purpose of seniority in the grade or eligibility for promotion to the next higher grade and he will be reverted as and when Select list persons are available.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 11th March 2004

No. 15/13/04-DRT.—The President is pleased to appoint Sh. D. Dwarkanath, Section Officer, Ministry of Home Affairs to the post of Recovery Officer in the office of Debts Recovery Tribunal-I, Chennai on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 w.e.f. 9.2.2004 (FN) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

No. 15/14/04-DRT.—The President is pleased to appoint Sh. A. Minj, MM-III of Bank of India to the post of Recovery Officer in the office of Debts Recovery Tribunal, Ranchi on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 w.e.f. 27.1.2004 (FN) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110 001, the 3rd February 2004

No. PFG(865)/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Syed Nasir Ali, an Officer of the Indian Revenue Service as Deputy Secretary in the Department of Company Affairs for a period of four years with effect from the forenoon of 27th January, 2004 upto 26th January, 2008 or until further orders, whichever event takes place earlier.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG(866)/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Amitabh Kumar, IRS (IT : 78) as Director General in the Competition Commission of India at the level of Joint Secretary for a normal tenure of five years in the scale of pay of Rs. 18400-22400/- with effect from the forenoon of 19th January, 2004 or until further orders, whichever event takes place earlier.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

The 6th February 2004

No. PFG(864)/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Vyasji, IAS (BH:82) as Secretary in the Competition Commission of India at the level of Joint Secretary for a period of three years in the scale of pay of Rs. 18400—22400/- with effect from the afternoon of 26th December, 2003 or until further orders, whichever event takes place earlier.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

(APPELLATE AUTHORITY FOR INDUSTRIAL AND  
FINANCIAL RECONSTRUCTION)

New Delhi-110001, the 8th March 2004

No. 1/5/2000-Admn.—In continuation of this Authority's Notification of even number dated 3.12.2002, the tenure of deputation period of Shri R.D. Sharma, a permanent Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200, is extended on the same terms and conditions, for a period of one year, i.e. from 26.12.2003 to 25.12.2004 or till abolition of this Authority, whichever is earlier.

HANWANT KISHORE, Under Secy.

## MINISTRY OF COMMERCE &amp; INDUSTRY

## (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 1st March 2004

No. A-4 (8)/2003-EPZ.—The President is pleased to appoint Shri B. Vijayan, IAS (AGMU : 82) as Development Commissioner, Madras Special Economic Zone, Chennai in the pay scale of Rs. 18400—22400 for a period of five years from 23.2.2004 (Forenoon), or until further orders.

ASHOK MEENA, Dy. Secy.

The 9th March 2004

No. A.5/1/2003-EPZ.—Consequent on his promotions to Selection Grade at Director level in the scale of pay of Rs. 15100—18300, approval of the Competent Authority is hereby conveyed for appointment of Shri Baldev Singh, IAS (MH:89) Joint Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone, Mumbai as Director by redesignating/upgrading the status of Deputy Secretary to that of Director as a measure personal to him for the period upto 24th March 2008 or until further orders. His appointment at the level of Director in the post shall take effect from the date of his taking over charge of the post at the level of Director.

2. The notification of even number dated 23.12.2003 issued by this Ministry, is hereby cancelled.

ASHOK MEENA, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND  
PROMOTION)

New Delhi, the 8th March 2004

No. A-19012/810/90-E.I.—The President is pleased to permit Shri D.P. Mehta, a regular Section Officer in the Central Secretariat Service cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, to retire from Government service, with effect from

the afternoon of 29th February, 2004 on his attaining the age of superannuation.

J. J. KAUR, Under Secy.

No.A-32019/01/2001-E.I.—The President is pleased to appoint the following Technical Officers of this Department to officiate, on ad-hoc basis, in the post and for the period as shown against each:—

Sl. No.	Name and substantive post held	Ad-hoc post held with date	Extension of Ad-hoc Appointment	
			From	To
1	2	3	4	
	S/Shri			
1.	Sushil Kumar Dev. Officer (Engg)	Ind. Adviser (Engg) 30.11.2000	01.03.2003	29.02.2004
2.	Dr. D. R. Chawla Dev. Officer (Engg)	Ind. Adviser (Engg) 01.04.2001	-do-	-do-
3.	V. K. Jain Sr. D.O. (Engg)	Addl. IA (Engg) 26.02.2001	-do-	-do-
4.	M.M. Ali Khan Dev. Officer (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 4.02.2000	-do-	-do-
5.	B.N. Das Dev. Officer (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 4.02.2000	-do-	30.09.2003
6.	S.P. Taneja Dev. Officer (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 4.02.2000	-do-	29.02.2004
7.	Mohenjeet Singh Dev. Officer (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 4.02.2000	-do-	-do-
8.	A.K. Sanghi Dev. Officer (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 26.02.2001	-do-	-do-
9.	Gejraj Singh A.D.O. (Engg)	Dev. Officer (Engg) 5.8.97	-do-	-do-
10.	R.K. Tripathi A.D.O. (Engg)	Dev. Officer (Engg) 26.02.01	-do-	-do-
11.	N.L. Goswami A.D.O. (Engg)	Dev. Officer (Engg) 20.06.01	-do-	-do-
12.	Mohd. Zakarie Khan Yusufzai, A.D.O. (Engg)	Dev. Officer (Engg) 20.06.01	-do-	-do-
13.	P.K. Jain Dev. Officer (Chem)	Indl. Adviser (Chem) 5.8.97	-do-	-do-
14.	Shaish Kumar Dev. Officer (Chem)	Sr. Dev. Officer (Chem) 14.2.2000	-do-	-do-
15.	S.S. Bose A.D.O. (Chem)	Dev. Officer (Chem) 1.9.1997	-do-	-do-

1	2	3	4
16.	D.C. Suri D.O. (Engg)	Sr. Dev. Officer 01.09.2003 (Engg) 25.07.2003	29.02.2004

2. The above appointment have been ordered purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officers to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc. The Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notice etc. to the officers concerned.

J.J. KAUR, Under Secy.

#### MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 10th March 2004

No. 3/2004. (A-19011/1/2004-Estt.).—The President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar, IAS (BH : 84), as Director in the Ministry of Textiles in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300, w.e.f. 05.03.2004 (AN) to 09.04.2008 or until further orders, whichever is earlier.

SHASHI BHUSHAN, Director

#### MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 8th March 2004

No. A-19011/1/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 31/10/2003-EO(MM.I) dated 01.03.2004, the President is pleased to appoint Shri P. Karupasamy as Deputy Secretary (in-situ) in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/-, with effect from the forenoon of 3rd March, 2004. The tenure of Shri P. Karupasamy shall be for a period of seven years from the date of taking over the charge of the post of Deputy Secretary in the Ministry or until further orders, which may be earlier or later than the date of expiry of his seven year's tenure or till the date of his superannuation, whichever event takes place the earliest.

L.S. NEGI, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND  
PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 10th March 2004

No. A-110011/1/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Yogita Lodhi to the post of Assistant Private Secretary to Minister of State for Chemicals and Fertilizers in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of December 24, 2003.

2. The appointment of Smt. Yogita Lodhi is on co-terminus basis or for so long as desired by the Minister, whichever event takes place earlier.

R.P. VASISTHA, Under Secy.

#### MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 4th March 2004

No. 11(36)/2002-Estt. (.).—In continuation of the Ministry's Notification of even number dated 9.10.2003, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of the following Grade "C" Stenographers in the CSSS Cadre of the Ministry as Private Secretaries in the same service and cadre w.e.f. 1.1.2004 to 31.3.2004 or till further orders or till regular Private Secretaries join, whichever is earliest :

S.No.	Name of the Official
1.	Smt. Surinder Kaur
2.	Shri M.S. Punjani
3.	Shri R.K. Malhotra
4.	Shri H.C. Bhatt

2. The above officials will not have any claim for seniority or regular promotion consequent on their ad-hoc appointment.

3. This issues with the approval of DOPT O.M. No. 5/5/2004-CS.II dated 27.2.2004.

BABOORAM, Under Secy.

The 8th March 2004

No. 2(15)/2003-Estt.—In continuation of the Ministry of Steel Notification of even number dated 19.9.2003, the President is pleased to extend the appointment of Shri A.C.R. Das, Joint Industrial Adviser in the Ministry of Steel as Additional Industrial Adviser on an *ad-hoc* basis in the same Ministry for a further period of three months with effect from 17.3.2004 or till a regular incumbent becomes available or till further orders whichever event takes place at the earliest.

The extension of the *ad-hoc* appointment of Shri Das will be governed by the same terms and conditions as mentioned in the above-mentioned notification.

BABOORAM, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 26th February 2004

No. A-19011/6/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri V.P. Singh, as Deputy Director (Cost) in the Department of Heavy Industry with effect from the forenoon of 25.02.2004.

K.K. SHARMA, Under Secy

#### MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

New Delhi, the 26th February 2004

No. A-12031/1/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri P.W. Ralegankar, IOFS (82) as Chief Vigilance

Officer in the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Mumbai under the Ministry of Agro and Rural Industries, for a period of three years with effect from 8.12.2003(F/N) or until further orders, whichever is earlier.

H.R. JOSHI, Under Secy.

# MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi-110 011, the 22nd January 2004

No. A. 32013/1/2002-NTH(Estt).—The President is pleased to appoint Shri Bhaskar Chakraborty Scientific Officer (Physical-Rubber/Plastic/Textile) as Scientist SB (Phy-RPT) on promotion in National Test House, Kolkata in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 with effect from 07.03.2003.

2. He will be on probation for two years.

H.S. MALHI, Under Secy.

New Delhi, the 5th March 2004

No. A. 12011/31/2002-Estt.—The President is pleased to extend the appointment of Shri D.K. Sonkar, a regular Senior Technical Assistant in the Department of Consumer Affairs as Assistant Director (Cooperation) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 on purely ad-hoc basis with effect from 26.12.2003 to 24.11.2004 or till regular incumbent is available or until further orders, whichever is earlier.

2. The period of ad-hoc appointment would not confer upon him any right or claim for regular appointment, seniority, etc., in the Grade of Assistant Director (Cooperation).

3. This issues with the approval of the DOP&T vide their U.O. No. 700/Estt.D/04 dated 25.2.2004.

S.K. NAYAK, Under Secy.

No. A. 12011/31/2002-Estt.—The President is pleased to extend the appointment of Shri M.S. Ashokan, a regular Assistant Director (Cooperation) in the Department of Consumer Affairs as Deputy Director (Cooperation) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 on purely ad-hoc basis with effect from 26.12.2003 to 11.2.2004 i.e. till his regular appointment to the grade of Deputy Director (Cooperation).

2. The period of ad-hoc appointment would not bestow on him any claim for regular appointment, seniority, etc., in the Grade of Deputy Director (Cooperation).

3. This issues with the approval of the DOP&T vide their U.O. No. 700/Estt.D/04 dated 25.2.2004.

S.K. NAYAK, Under Secy.

No. A. 12011/31/2002-Estt.—The President is pleased to extend the appointment of Dr. A.K. Mishra, a regular Deputy Director (Cooperation) in the Department of Consumer

Affairs as Director (Cooperation) in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on purely ad-hoc basis with effect from 26.12.2003 to 24.11.2004 or till regular incumbent is available or until further orders, whichever is earlier.

2. The period of ad-hoc appointment would not confer upon him any right or claim for regular appointment, seniority, etc., in the Grade of Director (Cooperation).

3. This issues with the approval of the DOP&T vide their U.O. No. 700/Estt.D/04 dated 25.2.2004.

S.K. NAYAK, Under Secy.

# (DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 15th March 2004

No. A-38012/1/2003-E.I.—On attaining the age of superannuation, Shri K.L. Mehta, Deputy Secretary in the Department of Food and Public Distribution shall stand retired from Government service w.e.f. the afternoon of the 31st March, 2004.

M.L. MALHOTRA, Under Secy.

# MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 25th February 2004

No. A. 32011/01/2001-Admn. I(A).—Competent Authority in the Department of Science & Technology is pleased to appoint the following Junior Technical Assistants to the post of Junior Analyst on ad-hoc basis in the scale of Rs. 6500-200-10500 in the Department of Science & Technology for the period mentioned against each or until further orders whichever is earlier.

Sl. No.	Name	Period of ad-hoc appointment
1.	Shri S.K. Choudhary	09.02.2004 to 08.08.2004
2.	Smt. Rajani Rawat	09.02.2004 to 08.08.2004

2. The ad-hoc appointment will not confer any right for regularization of the same or for the benefits such as seniority etc. on a future date. The Department reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reasons or giving notice etc. to the officers concerned.

T.N. DWIVEDI, Under Secy.

# MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (NATIONAL AFFORESTATION & ECO DEVELOPMENT BOARD)

New Delhi, the 1st March 2004

No. 19-3/2003/NAEB/B/VI.—On attaining the age of superannuation, Shri B.D. Ray, Under Secretary in the pay

scale of Rs. 10000-325-15200 has retired from Government Service in the afternoon of 29th February 2004 and accordingly he relinquished charge to the post of Under Secretary in the National Afforestation & Eco Development Board, Ministry of Environment and Forests, New Delhi.

B.C. BEHERA, Under Secy.

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH)**

New Delhi, the 27th February 2004

No. A. 32013/1/2004-Estt. I.—In pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure's O.M. No. 10(1)E-Coord 2004 dated 6.2.2004, Shri Arun Sharma, Joint Secretary & Financial Adviser (Ministry of Science & Technology), has assumed the additional charge of the post of Joint Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Health and Family Welfare with effect from 9th February, 2004.

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

The 1st March 2004

No. Z. 28015/28/2000-Estt. I.—The President is pleased to appoint Smt. Ganga Murthy (IES : 76) to the post of Additional Economic Adviser in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300 in the Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare with effect from 23.2.2004(F.N.).

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

The 8th March 2004

No. A. 11013/2/2004-Estt. I.—In pursuance of Department of Personnel and Training (Office of the Establishment Officer)'s Office Memorandum No. 5/1/2004-EO(MM.I) dated 20.2.2004, the competent authority is pleased to appoint Shri Vishnu Shankar Prasad, CES (Roads) (85), as Private Secretary to the Minister of State for Health & Family Welfare (Dr. Vallabhbai R. Kathiria) in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from 09.01.2004 at the level of Director for the balance period of his tenure of five years as admissible to Private Secretaries to Ministers i.e. up to 02.07.2008 or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 9th March 2004

No. A. 12025/02/2003-CHS. IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sudhir Kumar Maihi to the post of Specialist Grade-II (ENT) of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post him in Govt. of NCT of Delhi with effect from the

forenoon of the 22nd May, 2003 and until further orders.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

The 11th March 2004

No. A. 38020/1/2004-CHS. IV.—Consequent on her retirement from service on attaining the age of superannuation, Dr. (Smt.) Neena Bohra, an officer of the Supertime Grade of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service relinquished charge of the post of Consultant (Psychiatry), RML Hospital, New Delhi with effect from the afternoon of the 31st Aug., 2003.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

No. A. 38020/1/2004-CHS-IV.—Consequent on his retirement from service on attaining the age of superannuation Dr. V.H. Talib, an officer of the Supertime Grade of the Non-Teaching specialist Sub-Cadre of Central Health Service relinquished charge of the post of Consultant (Pathology), Safdarjang Hospital, New Delhi with effect from the afternoon of the 31st Dec., 2003.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

The 12th March 2004

No. A. 35014/17/2003-CHS.-V.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the president is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Ranjana Garg, Medical Officer of the Government of Arunachal Pradesh as Medical Officer in the pay scale of Rs. 8000—13500/- in the General Duty medical Officer sub-cadre of CHS on regular basis with effect from the forenoon of 6th October, 2003.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 4th March 2004

No. A. 11015/7/2000-N.—The President is pleased to appoint Smt. Sheela Mangwana, Deputy Nursing Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital New Delhi to the post of Nursing Superintendent in the pay scale of Rs. 8000-275-13500 in Lady Harding Medical College & Smt. SK Hospital, New Delhi with effect from 31.10.2003 (Forenoon) until further orders.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

New Delhi-110011, the 5th March 2004

No. A. 12025/126/07-CHS.-I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sanjay Amboj Lakra to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with

effect from forenoon of the 22.12.1997 until further orders. Dr. Sanjay Amboj Lakra is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 4th March 2004

No. A-38012/7/2003-Admn.-I.—Dr. Y. N. Rao, DDG (M) retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.01.2004.

KARNAIL SINGH, Dy. Dir. Admn. (KS)

The 10th March 2004

No. A-38012/5/2003-Admn.-I.—Shri M.Y. Ansari, DDA retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.12.2003.

KARNAIL SINGH, Dy. Dir. Admn. (KS)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 25th February 2004

No. A. 19013/(11)2/97-EA.—Consequent upon his appointment as Member-Secretary, in the pay scale of Rs. 18,400/-, 22,400/-, in the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), Department of Agriculture and Cooperation, on ad-hoc basis, on deputation terms, for a period of one year; Dr. Rajiv Mehta, an officer of Indian Statistical Service, is relieved of his duties as Additional Statistical Adviser at the Directorate of Economics and Statistics with effect from 04-02-2004 (A.N.).

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 26th February 2004

No. A. 19012/1/2004-EA.—The President is pleased to appoint Dr. Rajiv Mehta, an officer of Indian Statistical Service, to the post of Member-Secretary, in the pay scale of Rs. 18,400-22,400/-, in the Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP), Department of Agriculture and Cooperation, on ad-hoc basis, on deputation terms, for a period of one year, with effect from the afternoon of 04.02.2004 or till the regular appointment is made to the post according to Recruitment Rules, whichever is earlier.

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 8th March 2004

No. A. 19012/10/2000-EA.—The President is pleased to terminate the contract appointment of Shri M. Raghupathy

as Member (Non-Official) in the scale of pay of Rs. 18,400-22,400/-, in the Commission for Agriculture Costs and Prices, Department of Agriculture & Cooperation, with effect from the forenoon of the 1st March, 2004, on the expiry of his term as Member (Non-Official) in the Commission.

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 12th March 2004

No. A. 19012/9/2000-EA.—The President is pleased to relieve Dr. T. Haque of the charge of the post of Member (Official), in the Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP), Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 18,400-22,400 with effect from the afternoon of the 27th February, 2004.

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 9th March 2004

No. 9-2/2004-Policy (ES)-Part.—In continuation of Department of Agriculture & Cooperation Notification No. 9-2/2004-Policy (ES) dated 10.2.2004, Shri R.C.A. Jain has assumed regular charge of the post of Member-Secretary, National Commission on Farmers (NCF) with effect from 1st March, 2004 (P.N.), on his superannuation as Secretary (A&C) on 29.02.2004.

S.K. JAIN, Under Secy.

New Delhi, the 27th February 2004

No. 27-2514/2003-E.I.—Consequent on his attaining the age of superannuation, the President is pleased to retire Shri R.C.A. Jain, IAS (BH : 68), Secretary in Department of Agriculture and Cooperation, from Government service with effect from the afternoon of 29th February 2004.

DIPAK SINGH, Dir. (Pers.)

The 1st March 2004

No. 27-2536/2004-E-I.—The President is pleased to appoint Mrs. Radha Singh, IAS (BH : 69), as Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the afternoon of 29.2.2004, until further orders.

DIPAK SINGH, Dir. (Pers.)

The 3rd March 2004

No. 12023/7/2002-EV.—The President is pleased to appoint Dr. T.I. Mathewkutty, a regular Deputy Director, Coconut Development Board and presently holding the post of Deputy Commissioner (Crops) in the Department of Agriculture & Cooperation on deputation basis, as Additional Commissioner (Extension) in the pay scale of

Rs. 14300-400-18300 in the same Department on deputation basis w.e.f. 16.2.2004 (FN) and up to 27.1.2006 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

DIPAK SINGH, Dir. (Pers.)

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 27th February 2004

No. A. 12025/1/2001-Adm. I.—The President is pleased to appoint Dr. M.K. Agnihotri, Senior Scientist, Central Institute for Research on Goats, Makhdoom, Farah, Mathura (U.P.) as Joint Commissioner (Meat and Meat Products) in the pay scale of Rs. 14300-18300 on deputation basis in this Department for a period of 4 years with effect from the forenoon of 23.02.2004.

R.K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 8th March 2004

No. A. 12026/1/2004-Adm. I.—The President is pleased to appoint Shri S. Regunathan, IAS(AGMU : 68), as Secretary in the Department of Animal Husbandry & Dairying with effect from the forenoon of 8.3.2004, until further orders.

R.K. CHAUDHRY, Director

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi, the 8th March 2004

No. 5-20/2001-NI-II.—In continuation of this Ministry's Notification No. 5-20/2001-NI. II dated 6th September 2001 and in pursuance of Article 50 of the Articles of Association of National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC), the President is pleased to appoint Smt. Jayati Chandra, Joint Secretary in this Ministry as an ex-officio Director on the Board of Directors of NHFDC for a period of three years in place of Smt. Rajwant Sandhu, Joint Secretary or until further orders.

R. RADHAKRISHNAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 3rd March 2004

No. 3(3)/2003-Pers.I.—The President is pleased to appoint Shri S.A. Kumar, Scientists 'E' (E. No. 194) of this Department, who is presently on deputation, as Scientist 'F' in the scale of pay of Rs. 16400-450-20000/- in the Department of Information Technology from the date of assumption of charge of the post in the Department on his return to the cadre.

K.B. KATYAL, Director

No. 3(3)/2003-Pers.I.—The President is pleased to appoint the following Scientists 'D' of this Department as Scientist 'E' in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- in the Department of Information Technology with immediate effect:

1. Smt. Harshprabha (E. Code. No. 225)
2. Shri M. Ejazuddin (E. Code No. 227).
3. Shri Rajneesh Aggarwal (E. Code. No. 237).
4. Shri M. Seshagiri Rao (E. Code No. 179).

K.B. KATYAL, Director

No. 3(3)/2003-Pers.I.—The President is pleased to appoint the following Scientists 'C' of this Department who are presently on deputation as Scientist 'D' in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- in the Department of Information Technology from the date of assumption of charge of the post in the Department on their return to their cadre:

1. Shri B.B. Tiwari (E-Code No. 248).
2. Shri Deepak Sharma (E-Code No. 252).

K.B. KATYAL, Director

No. 3(3)/2003-Pers.I.—The President is pleased to appoint the following Scientists 'B' of this Department as Scientist 'C' in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the Department of Information Technology with immediate effect:

1. Shri Somnath Chandra (E. Code No. 851).
2. Shri Punyabrata Ghatak (E. Code. No. 853).
3. Shri S.S. Sarma (E. Code. No. 847).
4. Shri Shiv Charan Singh (E. Code. No. 260).

K.B. KATYAL, Director

No. 3(3)/2003-Pers.I.—The President is pleased to appoint the following Scientists 'E' of this Department as Scientist 'F' in the scale of pay of Rs. 16400-450-20000/- in the Department of Information Technology with immediate effect:

1. Smt. Renu Budhiraja (E. Code. No. 190).
2. Shri Arvind Kumar (E. Code. No. 171).
3. Shri Rakesh Maheshwari (E. Code. No. 186).
4. Smt. Geeta Kathpalia (E. Code. No. 131).

K.B. KATYAL, Director

No. 3(3)/2003-Pers.I.—The President is pleased to appoint the following Scientists 'C' of this Department as Scientist 'D' in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- in the Department of Information Technology with immediate effect:

1. Smt. Uma Chauhan (E. Code. No. 262).
2. Shri Anil Sagar (E. Code. No. 247).

K.B. KATYAL, Director

## (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 10th December 2003

Sub: Promotion and posting in Postal Service Group 'B' Grade

No. 9-2/2003-SPG.—The Director General (Posts) is pleased to appoint the following officers in the grade of Postal Service Group 'B' (Scale of pay Rs. 7500-250-12000/-) notionally w.e.f. the date of joining of his immediate junior and with actual benefits from the date of assumption of charge and until further orders.

Sl. No.	Name of the officer promoted	Seniority is fixed between (as in notification No. 9-2/2003-SPG dt. 17.06.2003)	Date of notional promotion (i.e. date of joining of his immediate junior)	Allotment of Circle on promotion
1.	K.C. Mohanty K.K. Verghese (Sl. No. 15) and R.K. Yadav (S. No. 16)		01.08.2003	Orissa
2.	A.M. Khan M.M. Hannure (S. No. 74) and P.P. Angal (S. No. 75)		09.07.2003	Maharashtra
3.	B.S. Saini Bharat Chandra Sethi (S. No. 69) and P.H. Kulkarni (S. No. 70)		21.07.2003	Delhi
4.	Gulab Singh Munni Pd. Singh (S. No. 107) and S. Naggappan (S. No. 108)		18.08.2003	Haryana

## 2. VIGILANCE/DISCIPLINARY CASE, IF ANY

In case any vig./disc. Case, of the type referred to in O.M. No. 22011/2/86-Estt.(A) dated 12.01.88 from DOP&T circulated vide this office memo No. 25-19/88-SPG dated 04.05.88 (subsequently) revised vide DOP&T memo No. 22022/4/91-Estt.(A) dt. 14.09.92 circulated vide this office memo No. 25-19/88-SPG dated 13.10.92 is pending against the officials, he should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. The official against whom any punishment is current they should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

## 3. PROMOTION SUBJECT TO ELIGIBILITY

In case it is later on found that the official was not eligible to take the examination under the rules or instructions on the subject or for any other reasons his promotion will be cancelled. In respect of official, if any, whose admission to the examination was provisional, the promotion will be subject to the final decision regarding his eligibility to taking the examination.

## 4. PROBATION PERIOD

The officials who have been promoted to the Postal Service Group 'B' will be on probation for two years and his

suitability to hold this post will be adjudged on completion of two years of probation. If any official proceeds on leave for a period exceeding 30 days during this period, the probation period will be extended depending upon the period of leave.

## 5. TRAINING

The official will be directly promoted to Postal Service Group 'B' without any training for the present. However is will have to undergo the prescribed training as and when notified by Director, PSC, Ghaziabad.

## 6. OPTION FOR FIXATION OF PAY

If the officer wishes to give option for choosing date for fixation of pay under FR-22(I)(a)(1) should do so within one month from the date of promotion.

7. Relevant charge reports may please be sent to this office in due course.

R.S. YADAV, Asstt. Dir. Genl. (SGP)

The 16th February 2004

Sub: Promotion and posting in Postal Service Group 'B' Grade.

No. 9-2/2003-SPG.—The Director General (Posts) is pleased to appoint the following Inspectors' line officials to officiate on regular basis in Postal Service Group 'B' grade (Scale of pay Rs. 7500-250-12000/-) w.e.f. the date of assumption of charge and until further orders.

2. The officers on promotion to Postal Service Group 'B' grade are posted to the circle mentioned against each.

Sl. No.	Name of the official	Batch	Circle	Circle to which allotted on promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(S/Shri)			
1.	Phool Singh	1980	Delhi	PLT Dte.
2.	Madan Mohan Vinayak	-do-	Hary.	Haryana
3.	Sham Das Nagpal	-do-	Hary.	Haryana
4.	S. Vijai	-do-	T.N.	T.N.
5.	P. Satyanarayana	-do-	A.P.	Jharkhand
6.	Chandra Mohan Srivastawa	-do-	Raj.	Delhi
7.	Bipad Taran Dafadar	-do-	W.B.	West Bengal
8.	K.V. George	-do-	Kerala	Kerala
9.	Subash Chand Srivastava	-do-	U.P.	U.P.
10.	K. Anjaneyulu	-do-	A.P.	Jharkhand
11.	B. Subbian	-do-	T.N.	Gujarat
12.	Sadanand Tiwari	-do-	U.P.	U.P.
13.	Thatappa Jyothi	-do-	K.T.K	Delhi
14.	V.L. Jose	-do-	Kerala	Kerala

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	B.S. Patel	1980	M.P.	J. & K.
16.	Ratikanta Chakra	-do-	Orissa	Punjab
17.	Anant Kumar Ganguli	-do-	Orissa	Delhi
18.	Kamta Pd. Soni	-do-	U.P.	U.P.
19.	P. Nageshwara Rao	-do-	A.P.	Jharkhand
20.	M.Y. Yahannan	-do-	Kerala	Kerala
21.	Lehna Singh	-do-	Hary.	J. & K.
22.	Avinash Chandra Nayyar	-do-	Hary.	J. & K.
23.	Balleswar K.V. (APS)	-do-	APS	APS
24.	R.P. Yadav	-do-	M.P.	Uttaranchal
25.	Sadhucharan Mahapatra	-do-	Orissa	J. & K.
26.	K. Narasimhulu	-do-	A.P.	Punjab
27.	B.L. Devangan	-do-	CTG	Punjab
28.	T.R. Subramanian	-do-	T.N.	Punjab
29.	Pooran Singh	-do-	U.P.	Uttaranchal
30.	Moni Mohan Das	-do-	W.B.	N.E.
31.	Ashok Kumar Paul	-do-	W.B.	N.E.
32.	Muni Deo Mishra	-do-	W.B.	PTC, Dharbanga
33.	K. Swamynaidu	-do-	A.P.	Punjab
34.	Y.N. Mohan (APS)	-do-	APS	APS
35.	Dharam Pal Gupta	-do-	U.P.	Uttaranchal
36.	A.T. Joshi	-do-	Mah.	Maharashtra
37.	Kali Krishna	-do-	NE	N.E.
38.	Ram Bharat Goswami	-do-	Hary.	J. & K.

### 3. VIGILANCE/DISCIPLINARY CASE, IF ANY

In case any vig./disc. Case, of the type referred to in O.M

No. 22011/2/86-Estt.(A) dated 12.01.88 from DOP&T circulated vide this office memo No. 25-19/88-SPG dated 04.05.88 (subsequently) revised vide DOP&T memo No. 22022/4/91-Estt.(A) dt. 14.09.92 circulated vide this office memo No. 25-19/88-SPG dated 13.10.92 is pending against any of the officials, he should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. The officials against whom any punishment is current they should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

### 4. PROBATION PERIOD

All the officials who have been promoted to the Postal Service Group 'B' will be on probation for two years and their suitability to hold this post will be adjudged on completion of two years of probation. If any official proceeds on leave for a period exceeding 30 days during this period, the probation period will be extended depending upon the period of leave.

### 5. TRAINING

All the officials will be directly promoted to Postal Service Group 'B' without any training for the present. However

they will have to undergo the prescribed training as and when notified by Director, PSC, Ghaziabad.

### 6. OPTION FOR FIXATION OF PAY

All the officers who wish to give option for choosing date for fixation of pay under FR-22(I)(a)(I) should do so within one month from the date of promotion.

### 7. OFFICERS ALLOTTED OUT OF THEIR PARENT CIRCLES

The circles of allotment will immediately issue posting order and in any case not later than 28.02.2004. The Circles in which the officials are presently working will relieve the officials immediately on receipt of posting orders from the circles to which they are posted. In case, any official is not interested to assume promotional post, he may decline the offer of promotion in writing within a period of fortnight without which he may be relieved by concerned CPMG without fail. The CPMsG of the concerned circle will report to Directorate regarding assumption of charge and relief of officers in their circle in a consolidated manner by 10.03.2004 positively.

8. Relevant charge reports may please be sent to this office in due course.

R.S. YADAV, Asstt. Dir. Genl. (SGP)

### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 05th March 2004

No. ERB-1/94/6/2.—The following Section Officers (Probationer) are appointed substantively in the grade of Section Officers of Railway Board Secretariat Service with effect from the forenoon of the dates indicated against each :—

S.No.	Name	Date of confirmation
1.	Ms. G. Priya Sudarsani	11.01.2003
2.	Shri Vijay B. Waghmare	12.01.2003

V.N. MATHUR, Secy. Rly. Board &  
Ex-officio Addl. Secy.

The 9th March 2004

No. ERB-1/2004/2/1.—Shri T.K. Biswas, HAG/IRSME, Adviser (Mechanical Engineering), Railway Board, is appointed as Additional Member (Mechanical Engineering), Railway Board, in Grade Rs. 24050-26000/-, with effect from the forenoon of 27.02.2004.

V.N. MATHUR, Secy. Rly. Board &  
Ex-officio Addl. Secy.

No. ERB-1/2004/2/3.—Shri R. Sundararajan, HAG/IRSE, Adviser (Works), Railway Board, is appointed as

Additional Member (Works), Railway Board, in Grade Rs. 24050-26000/-, with effect from the afternoon of 26.02.2004.

V.N. MATHUR, Secy. Rly. Board &  
*Ex-officio* Addl. Secy.

No. ERB-1/2004/2/3.—Shri Budh Prakash, HAG/IRSE, Adviser (Civil Engineering), Railway Board, is appointed as Additional Member (Civil Engineering), Railway Board in Grade Rs. 24050-26000/-, with effect from the afternoon of 26.02.2004.

V.N. MATHUR, Secy. Rly. Board &  
*Ex-officio* Addl. Secy.

No. ERB-1/2004/2/8.—Shri N.K. Aneja, AEE(Dev.), Railway Board (Grade Rs. 7500-12000), is promoted to officiate as Deputy Director, Elec. Engg. (Development), Railway Board, in Grade Rs. 10,000-15,200/-, on ad hoc basis, with effect from 06.02.2004 (AN), until further orders.

V.N. MATHUR, Secy. Rly. Board &  
*Ex-officio* Addl. Secy.

The 10th March 2004

No. ERB-1/2003/2/85.—On the basis of results of Limited Departmental Competitive Examination-2001, Ms. Priya Gopkrishnan, Personal Assistant, Railway Board (Scale Rs. 5500-9000/-) is appointed as Section Officer of Railway Board Secretariat Service, in the scale of Rs. 6500-10500/-, with effect from the forenoon of 22.12.2003.

V.N. MATHUR, Secy. Rly. Board &  
*Ex-officio* Addl. Secy.

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 10th March 2004

No. A. 38012/01/2003-RS.—On attaining the age of superannuation Shri R. Rajamani, Chief Commissioner of Railway Safety in the Commission of Railway Safety under the Ministry of Civil Aviation retired from Government service on the afternoon of 29th February, 2004.

S. RAJAGOPALAN, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 10th March 2004

No. 8/2004. F. No. A-32013/2/2002-Adm. I.—The President is pleased to appoint following officers of

the Central Power Engineering (Group A) Service, to the grade of Chief Engineer/Member-Secretary (Regional Electricity Boards) in the scale of pay of Rs. 5900-200-6700 (Pre-revised) of the same Service in the Central Electricity Authority with effect from the dates shown against each until further orders.

S.No.	Name	Date of appointment
	(S/Shri)	
1.	S.K. Mohan Ram	21.01.2004 (Forenoon)
2.	V.K. Sharma	21.01.2004 (Forenoon)
3.	K. Srinivasa Rao	28.01.2004 (Forenoon)
4.	A.K. Sharma	21.01.2004 (Forenoon)
5.	Prititosh Ray	28.01.2004 (Forenoon)
6.	M.K. Garg	21.01.2004 (Forenoon)
7.	A.K. Puri	21.01.2004 (Forenoon)
8.	M.L. Sharma	27.02.2004 (Forenoon)

V.C. KAJLA, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 10th March 2004

No. 7/6/2002.GW.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Sinha, Joint General Manager, Grey Iron Foundry, Jabalpur to the post of Director (Administration) in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 in Central Ground Water Board, w.e.f. 20.02.2004 (FN) on deputation basis for a period of 5 years or until further orders, which ever is earlier.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

No. 7/10/2003-GW. I.—In pursuance of this Ministry's Office Order of even No. dated 22nd October, 2003 the following officers in the grade of Scientist 'C' (scale Rs. 10000-15200) in the Central Ground Water Board are appointed to the grade of Scientist 'D' in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 under the Flexible Complementing Scheme (FCS) for panel year 1998 with effect from the dates mentioned against their names :—

S.No.	Name & Designation of the Officer	Date of joining as Sci-D
1	2	3
	(S/Shri)	
1.	Dr. B.C. Mehta, Sci-C (Chem.)	22.10.2003
2.	D.K. Goel, Sci-C (Chem.)	22.10.2003
3.	Shadi Lal Kapoor, Sci-C (Chem.)	23.10.2003

1	2	3
4.	M.K.M. Rao, Sci-C (Hydrometeorology)	22.10.2003
5.	B. Shyam Sunder, Sci-C (Hydrometeorology)	23.10.2003
6.	Abrar Hussain, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
7.	T.M. Parthasarathy, Sci-C (Hydrogeology)	23.10.2003
8.	A.K. Mishra, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
9.	Akhtar Jamal, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
10.	Dr. A.N. Lal, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
11.	Subash Datta, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
12.	S.K. Bansal, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
13.	P.K. Parchure, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
14.	S.V.N. Satyanarayana Rao, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
15.	Sunil Kumar, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
16.	Utpal Gogoi, Sci-C (Hydrogeology)	10.11.2003
17.	Sanjay Marwaha, Sci-C (Hydrogeology)	23.10.2003
18.	T.L. Chakraborty, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
19.	A. Damodar Rao, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
20.	Anoop Nagar, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
21.	C. Paul Prabhakar, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
22.	D. Subba Rao, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
23.	G. Sudarshan, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
24.	B.B. Bhattacharya, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
25.	Parvinder Singh, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
26.	Sunil Kumar Jain, Sci-C (Hydrogeology)	27.10.2003

1	2	3
27.	J.S. Sharma, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
28.	D.P. Pati, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
29.	A.K. Agrawal, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
30.	V. Kunhambu, Sci-C (Hydrogeology)	23.10.2003
31.	S.S.P. Mishra, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
32.	K.M. Viswanath, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
33.	Dr. (Mrs.) Uma Kapoor, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
34.	Y.B. Kaushik, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
35.	G.V.V.R.G.S. Prasada Rao, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
36.	S.K. Samanta, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
37.	S.N. Bhattacharya, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
38.	K.R. Sooryanarayana, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
39.	Dr. D.S. Pandey, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
40.	Amlan Jyoti Kar, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
41.	P.K. Jain, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
42.	S.N. Sinha, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
43.	K.K. Singh, Sci-C (Hydrogeology)	23.10.2003
44.	O.N. Tiwari, Sci-C (Hydrogeology)	27.10.2003
45.	Dr. P.K. Naik, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
46.	P.N. Rao, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
47.	B.K. Kallapur, Sci-C (Hydrogeology)	23.10.2003
48.	Pratul Kalita, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003

1	2	3
49.	Padam Kumar Jain, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
50.	Arijit Dey, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
51.	A. Subbaraj, Sci-C (Hydrogeology)	27.10.2003
52.	G. Bhaskar Rao, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
53.	K.V. Kumar, Sci-C (Geophysics)	22.10.2003
54.	S.K. Gupta, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
55.	I.K. Sharma, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003
56.	Dr. M.N. Khan, Sci-C (Hydrogeology)	22.10.2003

2. Shri I.K. Sharma and Dr. M.N. Khan have been considered and appointed to the grade of Scientist 'D' under FCS in compliance with the common order dated the 6th Jan., 2003 passed by the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Jaipur Bench in O.A. No. 85/2002 and O.A. No. 429/98.

3. The promotion on the above officers to the grade of Scientist 'D' under the FCS will be in situ and personal to the officers concerned and will not result in specific vacancy in the lower grade of Scientist 'C' on that account. The posts being currently held by the concerned officers will stand upgraded for the duration of their stay in the higher grade i.e. Scientist 'D' and the posts shall stand downgraded to the original level once these officers vacate the higher posts.

4. The promotions ordered above are subject to the final outcome of the court case bearing OA No. 74/97 filed by Shri Akhtar Jamal and others Vs. Union of India before the Central Administrative Tribunal, Lucknow Bench and any other pending/decided court case on the subject matter.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

New Delhi, the 11th March 2004

No. 8/2004 (F. No. 25/1(8)/2002-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2001, the President is pleased to appoint Shri Anindya Ghosh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000-13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 15.09.2003 (FN).

2. Shri Anindya Ghosh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

The 16th March 2004

No. 9/2004 (F. No. 19/8/2004-Estt.I.)—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri C. R. Nambisan, Assistant Director/Assistant Executive Engineer, Central Water Commission, an officer of Junior Time Scale of Central Water Engineering (Group 'A') Service retired from service in the afternoon of the 31-01-2004.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 12th February 2004

No. 22/2004 (8/1/2004-Admn.II).—On attaining the age of superannuation, Shri K. Bhaskara Rao, Private Secretary (IRLA No. 14704) of CSSS cadre of this Ministry has retired from Government service with effect from 31.1.2004 (A/N).

V.K. SEKHRI, Under Secy.

No. 23/2004 (8/1/2004-Admn.II).—On attaining the age of superannuation, Dr. G. R. Gupta, Private Secretary of CSSS cadre of this Ministry has retired from Government service with effect from 31.1.2004 (A/N).

V. K. SEKHRI, Under Secy.

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION.

(DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

New Delhi, the 17th February 2004

No. K-11011/5/2001-DDIA.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri Madhukar Gupta, IAS (UL:71), presently Additional Secretary, Department of Mines, as Vice-Chairman, Delhi Development Authority in the rank and pay of Additional Secretary with effect from the date on which he assumes the charge of the post and until further orders vice Shri Anil Baijal, IAS (AGMU:69).

S. N. GUPTA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF URBAN EMPLOYMENT &  
POVERTY ALLEVIATION)

New Delhi-110011, the 1st March 2004

No. A-23016/1/97-HII/HIV.—Consequent upon his promotion to the Senior Time Scale (STS) of the Indian Statistical Service (ISS) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad hoc basis and in pursuance of

Ministry of Statistics and Programme Implementation Office Order No. 12015/8/2003-ISS dated 26-9-2003 Shri M. B. R. Shastri Junior Time Scale (JTS) officer of ISS is appointed as Deputy Director in National Building Organisation with effect from 29-1-2004 (F.N.) on ad oc basis until further orders.

HAZARI LAL, Director (Housing)